



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 19—नवम्बर 25, 2011 (कार्तिक 28, 1933)  
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 19—NOVEMBER 25, 2011 (KARTIKA 28, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2011

सेना शाखा

सं. 519, दिनांक 17 अक्टूबर 2011--

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से नियमित आधार पर संयुक्त निदेशक के ग्रेड में नियुक्त करते हैं :--

नाम, जन्म तिथि, नियमित करने की तारीख

सी अरसकुमार, 17 नवम्बर 1951, 01 अक्टूबर 1987

अर्चना राय, 28 मार्च 1956, 01 अक्टूबर 1988

रोहिणी शंकर, 29 मार्च 1955, 01 अक्टूबर 1988

टी पी श्रीवास्तवा, 09 नवम्बर 1955, 01 अक्टूबर 1988

भरत सिंह, 26 फरवरी 1955, 01 अक्टूबर 1989

जे पी द्विवेदी, 25 जुलाई 1954, 01 अप्रैल 2004

सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित उप निदेशकों की नियुक्ति की अवधि उनके नाम के सामने लिखी गई तारीख से दी गई अवधि तक अथवा सेवानिवृत्ति

अथवा नियमित पदधारी मिलने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :--

नाम, जन्म तिथि, अवधि (से/तक)

अबिनाश कुमार, 16 नवम्बर 1965, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

अरविंद, 17 जून 1969, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

अरविंद बक्शी, 21 सितम्बर 1957, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

अशोक चक्रपाणि, 14 अप्रैल 1970, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

के एन मंजूनाथ, 22 मई 1967, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

निधि ओझा, 26 सितम्बर 1972, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

राजेश तिवारी, 30 जून 1961, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

एस के मिश्रा, 25 जनवरी 1962, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर की गई है और प्रशासनिक कार्यों से अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना कोई सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

तदर्थ नियुक्ति के आधार पर ये अधिकारी उपर्युक्त पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। इस ग्रेड में उनकी वरिष्ठता अगले ग्रेड में वरिष्ठता एवं पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी (काउंट की) जाएगी।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से नियमित आधार पर उप निदेशक के ग्रेड में पदोन्नत करते हैं :--

नाम, जन्म तिथि, नियमित करने की तारीख

अभय सिंह, 21 नवम्बर 1963, 01 अक्टूबर 1997

वी विजय शंकर, 19 फरवरी 1965, 01 अक्टूबर 2000

वनाली शर्मा, 13 जुलाई 1964, 01 अक्टूबर 2000

वी एस पाल, 01 मार्च 1968, 01 अक्टूबर 2000

देवेन्द्र कुमार, 05 दिसम्बर 1967, 01 अक्टूबर 2000

एम चंद्रशेखर, 17 जुलाई 1969, 01 जुलाई 2000

प्रज्ञा शांतनु, 06 जून 1969, 01 अक्टूबर 2000

के एन मिश्रा, 17 जुलाई 1954, 26 मई 2001

शिव राम बैरवा, 11 सितम्बर 1965, 26 मई 2001

सी पी गुप्ति, 03 जनवरी 1964, 01 अप्रैल 2003

अनुपम मिश्रा, 29 जुलाई 1967, 01 अप्रैल 2003

डी वी सिंह, 10 मई 1959, 01 अप्रैल 2003

दीपक खोसला, 13 जून 1967, 01 अप्रैल 2003

निशी श्रीवास्तव, 08 नवम्बर 1966, 01 अप्रैल 2003

निर्मल बाधवा, 23 जून 1958, 01 अप्रैल 2003

एस सी पुजारी, 26 जनवरी 1955, 01 अप्रैल 2004

राष्ट्रपति स से मु सिविल सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (समूह 'ख' राजपत्रित) को वेतन बैंड-III में 6,600/- रु. ग्रेड वेतन सहित 15,600--34,800/- रु. के वेतनमान में उनके नाम के सामने दी गई तारीख से छह महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी मिलने तक, जो भी पहले हो, उप निदेशक (समूह 'क' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नत करते हैं :--

नाम, जन्म तिथि, पदोन्नति की तारीख

कुंदन कुमार, 17 अक्टूबर 1963, 19 अप्रैल 2011

अनीता कुमारी, 01 जनवरी 1967, 19 अप्रैल 2011

पंकज सिंह सिसोदिया, 03 अगस्त 1974, 11 मई 2011

यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर की गई है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना कोई सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

उप निदेशक के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा उस ग्रेड में उनकी वरिष्ठता एवं अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता के लिए गिनी (काउंट की) जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं :--

नाम, जन्म तिथि, नियमित करने की तारीख

एच एल पासी, 11 फरवरी 1946, 26 मई 2001

आर एल तखी, 15 जुलाई 1950, 26 मई 2001

कुंदन कुमार, 17 अक्टूबर 1963, 26 मई 2001

यू पी मोहनन, 01 फरवरी 1965, 26 मई 2001

जोसेफ जेराड फर्नांडीस, 15 मई 1963, 26 मई 2001

प्रकाश गिरी, 05 जून 1945, 26 मई 2001

रमेश कुमार खुराना, 17 सितम्बर 1945, 26 मई 2001

सुखेन्दु दाँ, 12 मई 1967, 01 अप्रैल 2002

पी जे रॉस, 19 जून 1967, 01 अप्रैल 2002

अनीता कुमारी, 01 जनवरी 1967, 01 अप्रैल 2002

पी एम दास, 23 अप्रैल 1963, 01 अप्रैल 2002

प्रभुदयाल, 10 मार्च 1946, 01 अप्रैल 2002

योगेश द्विवेदी, 01 जनवरी 1964, 01 अप्रैल 2002

गुलशन राय, 30 अक्टूबर 1968, 01 अप्रैल 2003

ए के एल दास, 26 जनवरी 1966, 01 अप्रैल 2003

एम शामराज, 25 सितम्बर 1949, 01 अप्रैल 2003

देश राज, 05 अक्टूबर 1955, 01 अप्रैल 2005

दीपक कुमार दास, 01 अगस्त 1966, 01 अप्रैल 2005

एस के मेलकानी, 20 मई 1967, 01 अप्रैल 2005

विश्वरंजन मोहंती, 01 जुलाई 1968, 01 अप्रैल 2005

शीला सिन्हा, 01 अप्रैल 1968, 01 अप्रैल 2005

अन्नापूर्णी श्रीनिवासन, 30 अप्रैल 1945, 01 अप्रैल 2005

बिनोदा नंद झा, 10 अक्टूबर 1968, 01 अप्रैल 2006

देवी दयाल, 14 मई 1953, 01 अप्रैल 2006

के के मिश्रा, 02 जनवरी 1968, 01 अप्रैल 2006

रमिन्दर सिंह, 29 मई 1969, 01 अप्रैल 2006

आशीष रे, 07 जुलाई 1969, 01 अप्रैल 2007

शिवकुमार, 23 फरवरी 1971, 01 अप्रैल 2007

आर के तलवार, 25 दिसम्बर 1951, 01 अप्रैल 2007

पंकज भारती, 09 जुलाई 1971, 01 अप्रैल 2007

राम निवास, 14 मई 1951, 01 अप्रैल 2007

बी एस चौहान, 03 जुलाई 1967, 01 अप्रैल 2007

आर एम गुप्ता, 10 जनवरी 1949, 01 अप्रैल 2007

के एन चतुर्वेदी, 07 मार्च 1950, 01 अप्रैल 2007

सतीश कुमार, 05 जुलाई 1950, 01 अप्रैल 2008

एस के वर्मा, 10 दिसम्बर 1971, 01 अप्रैल 2009

आर सी साहू, 13 जून 1973, 01 अप्रैल 2009

अशोक कुमार, 02 जुलाई 1969, 01 अप्रैल 2010

आर पी मीणा, 09 सितम्बर 1964, 01 अप्रैल 2010

सजन लाल, 05 अक्टूबर 1973, 01 अप्रैल 2011

बी डी प्रसाद, 06 दिसम्बर 1951, 01 अप्रैल 2011

सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखी गई तारीख से दी गई अवधि तक अथवा सेवानिवृत्ति अथवा नियमित पदधारी मिलने तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं :--

नाम, जन्म तिथि, अवधि (से/तक)

आई सी शर्मा, 14 जून 1955, 01 अप्रैल 2011/31 दिसम्बर 2011

एस सी गर्ग, 03 जुलाई 1955, 01 अप्रैल 2011/31 दिसम्बर 2011

2. यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर की गई है और प्रशासनिक कार्यों से अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना कोई सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

3. तदर्थ नियुक्ति के आधार पर ये अधिकारी उपर्युक्त पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। इस ग्रेड में उनकी वरिष्ठता अगले ग्रेड में वरिष्ठता एवं पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी (काउंट की) जाएगी।

राष्ट्रपति, कुमारी जया सिन्हा (जन्म तिथि 01 मार्च 1978) को वेतन बैंड-2 में 4,800/- रु. ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रु. के वेतनमान में 05 मई 2011 से स से मु सिविल सेवा के अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

ए के लारोइया  
उप मुप्रअ (प्रशा)

थल सेना शाखा

सं. 520, दिनांक 17 अक्टूबर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारियों को, उनके नाम के आगे लिखी तारीख से, वेतन बैंड-3, रुपए 15,600--39,100/- ग्रेड पे रुपए 5,400/- के वेतनमान में, सिविलियन सुरक्षा अधिकारी (ग्रुप 'ए' राजपत्रित) के रूप में अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

नाम, नियुक्ति की तारीख

रंधीर सिंह डबास, 18 जुलाई 2011

राजविंदर सिंह, 12 जुलाई 2011

धरमाकर दशरथ, 01 अगस्त 2011

श्याम सुंदर, 16 अगस्त 2011

प्रेम बाबू, 25 जुलाई 2011

अशोक कुमार गुप्ता, 08 अगस्त 2011

एस एस एस सर्मा  
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 521, दिनांक 17 अक्टूबर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित जैण्टलमैन कैडेट, जो कि 109 टी जी सी एवं 18 यू ई एस पाठ्यक्रम के हैं, को 12 जून 2010 (पूर्वाह्न) से सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 12 जून 2008 से सेना अनुदेश 2/93 यथासंशोधित के अन्तर्गत दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है :--

टी/6673 अभयजीत महलावत (आईसी-72689डब्ल्यू) सिग्नल्स की वरिष्ठता टी/6651 राहुल देव अ (आईसी-72688एन) आर्टी के नीचे, टी/6656 अनुभव पंत (आईसी-72691एन) इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता टी/6662 देवमाल्या मुखर्जी (आईसी-72690एल) आर्टी के नीचे, टी/6678 अंकुर श्रीवास्तवा (आईसी-72702पी) सिग्नल्स की वरिष्ठता टी/6648 अनुज सिंह चौहान (आईसी-72701एम) इंजीनियर्स के नीचे, टी/6641 दिनेश कुमार यादव (आईसी-72710एन) ईएमई की वरिष्ठता यू/996 संजीव सिंह (आईसी-72709वाई) ईएमई के नीचे, टी/6670 निखिल शर्मा (आईसी-72719एच) ईएमई की वरिष्ठता यू/1019 मंजुल राज (आईसी-72718ए) इंजीनियर्स के नीचे, टी/6643 श्याम बिहारी त्रिपाठी (आईसी-72729एम) सिग्नल्स की वरिष्ठता यू/984 पुनो रोबर्ट (आईसी-72728के) इंजीनियर्स के नीचे, टी/6654 गुरप्रीत सिंह फेंग (आईसी-72755एन) ए ए डी की वरिष्ठता टी/6685 अंकुश शर्मा (आईसी-72754एल) ए सी के नीचे, टी/6677 रतन भंडारी (आईसी-72776के) इंजीनियर्स की वरिष्ठता टी/6689 यजुवेन्द्र कुमार गौतम (आईसी-72775एफ) इंजीनियर्स के नीचे, एवं टी/6672 विरेन्द्र चौधरी (आईसी-72779एक्स) इंजीनियर्स की वरिष्ठता टी/6644 भृगु व्यास पात्रो (आईसी-72778पी) ए एस सी के नीचे, जिनके नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 09 अप्रैल 2011 को प्रकाशित हो चुके हैं।

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित जैण्टलमैन कैडेट जो कि 18 टी जी सी पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित को पूर्व आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए, जो कि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :--

आई एम ए संख्या, नाम (एसएस संख्या), आर्म्स/सर्विस, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

टी-6641 दिनेश कुमार यादव (एसएस-43954वाई), ईएमई, 15 जुलाई 2009

टी-6643 श्याम बिहारी त्रिपाठी (एसएस-43956के), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

टी-6654 गुरप्रीत सिंह फेंग (एसएस-43967डब्ल्यू), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

टी-6656 अनुभव पंत (एसएस-43969एफ), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

टी-6670 निखिल शर्मा (एसएस-43983एन), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

टी-6672 विरेन्द्र चौधरी (एसएस-43985वाई), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

टी-6673 अभयजीत महलावत (एसएस-43986एफ), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

टी-6677 रतन भंडारी (एसएस-43990के), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

टी-6678 अंकुर श्रीवास्तवा (एसएस-43991एम), सिग्नल्स, 15 जुलाई 2009

2. जैण्टलमैन कैडेट को दिए गए आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

नीलेश चौधरी  
ले कर्नल  
ए एम एस 8 बी

सेना शाखा

सं. 522, दिनांक 18 अक्टूबर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना  
स्थायी आयोग

(ले के पद पर दिनांक 11 दिसम्बर 2010 से)

निम्नलिखित 126 नियमित पाठ्यक्रम (126 डायरेक्ट एंट्री, 116 एन डी ए, 93 ए सी सी) के कैडेटों को सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 12 जून 2010 से स्थायी रूप से सेना निदेश ए/एस/74 (डायरेक्ट एंट्री), सेना निदेश 53/78 को वि से नि/ए एस/74 को साथ पढ़ा जाए (एन डी ए), सेना निदेश 55/74 (ए सी सी) के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है:-

(आईसी-72205एल) विक्रान्त धीमान, इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता (आईसी-72204एच) रोहित सलारिया, इन्फैन्ट्री के नीचे, (आईसी-72262एम) राजिव बोपचे, सिग्नल की वरिष्ठता (आईसी-72261के) राज सिंह, आर्टी के नीचे, (आईसी-72320एल) जिगमेत सिंगे, इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता (आईसी-72319डब्ल्यू) राघवेन्द्र सिंह राठौड़, एएडी के नीचे, (आईसी-72330पी) देवेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता (आईसी-72329ए) वासुदेव दामोदर आंवारी, आर्टी के नीचे, (आईसी-72399वाई) विवियन लाजरस, सिग्नल की वरिष्ठता (आईसी-72398डब्ल्यू) एस बालासुब्रमनियन, इन्फैन्ट्री के नीचे, (आईसी-72436एफ) अरविंद कुमार, इंजीनियर्स की वरिष्ठता (आईसी-72435वाई) रविन्द्र सिंह कुन्तल, आर्टी के नीचे, (आईसी-72446एल) विवेक कृष्ण पैन्थली, इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता (आईसी-72445एच) अजय चम्बयाल, आर्टी के नीचे, (आईसी-72511ए) अभिषेक, इंटर की वरिष्ठता (आईसी-72510एक्स) शशि नंदन कुमार, मैक इन्फैन्ट्री के नीचे, (आईसी-72514एन) दिग्विजय सिंह चौहान, ईएमई की वरिष्ठता (आईसी-72513एल) जितेन्द्र राठौड़, एसी के नीचे, (आईसी-72529डब्ल्यू) गुरदकबाल परमप्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री और (आईसी-72530एल) अर्पित शर्मा, सिग्नल की क्रमानुसार वरिष्ठता (आईसी-72528एन) विनोद कौशल, इन्फैन्ट्री के नीचे, (आईसी-72540पी) मुकेश कुमार, इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता (आईसी-72539ए) वरुण शर्मा, एसी के नीचे, प्रकाशित किए जाएं, जिनके नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी 2011 को प्रकाशित हो चुके हैं।

राहुल सांगवान  
ले कर्नल  
ए एम एस 8बी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 523, दिनांक 18 अक्टूबर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

डॉ वी वैक्टेसन, वैज्ञानिक 'डी' को उच्च ऊर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला (एचईएमआरएल) पुणे में एक साल की परखावधि पर दिनांक 02 दिसम्बर 2008 (पूर्वाह्न) से वेतनमान (पे बैंड-3) में रुपए 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रुपए 7,600/- के वेतनमान में।

हरीश मोहन  
उप निदेशक (कार्मिक)

थल सेना शाखा

सं. 524, दिनांक 18 अक्टूबर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
(सेना चिकित्सा कोर)

सर्जन कमांडर से सर्जन कैप्टन (व समकक्ष) के पद पर

के बोस (एमआर-06010ए) (75466), 28 सितम्बर 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है।

आर पंत (एमआर-05932डब्ल्यू), 04 मार्च 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है।

यश पांडे  
ब्रिगेडियर  
उप महानिदेशक ससेचिसे(मांस)

सेना शाखा

सं. 525, दिनांक 19 अक्टूबर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
मेजर से ले कर्नल

एसएल सं., नाम एवं आर्म  
एसएल-04540 निजाउद्दीन के, इंजीनियर्स  
एसएल-04541 नीरबहादुर के सी, आर्टी  
एसएल-04543 रंजीत सिंह, इंजीनियर्स  
एसएल-04544 जेम्स एम जे, इंजीनियर्स

एसएल-04545 रामदास जी एन, सिग्नल  
 एसएल-04546 सत्य नारायण यादव, इंजीनियर्स  
 एसएल-04548 तेज प्रताप सिंह, सिग्नल  
 एसएल-04549 चंचल कुमार सिंह, आर्टी  
 एसएल-04550 सोमबीर सिंह मान, एपीटीसी  
 एसएल-04551 वेद प्रकाश, आरओ  
 एसएल-04552 कारुटचेलवन, सिग्नल  
 एसएल-04553 बजरंग सिंह, एडी आर्टी  
 एसएल-04554 वीरेन्द्र सिंह, आरओ  
 एसएल-04556 सुकुमार मानेवन वी, आरओ  
 एसएल-04557 हरबिन्दर सिंह, इंजीनियर्स  
 एसएल-04558 पी रमनमजुला चेट्टी, इंजीनियर्स  
 एसएल-04559 मुकेश चन्द त्यागी, आरओ  
 एसएल-04560 मदन मोहन मिश्रा, ईएमई  
 एसएल-04562 प्रशांत कुमार दास, आरओ  
 एसएल-04563 प्रभु दयाल खेरवा, एपीटीसी  
 एसएल-04564 बलदेव सिंह, सिग्नल  
 एसएल-04565 बलवान सिंह, सिग्नल  
 एसएल-04566 यू के मिश्रा, सिग्नल  
 एसएल-04567 सुलाकुडे विलास मल्लू, आर्टी  
 एसएल-04568 पूरन सिंह, सिग्नल  
 एसएल-04569 नसीब चंद, आरओ  
 एसएल-04570 विरेन्द्र प्रसाद भट्ट, आरओ  
 एसएल-04571 कनवल नैन सिंह, आरओ  
 एसएल-04572 बीर नयायन सिंह, आरओ  
 एसएल-04573 जोरावर सिंह, आरओ  
 एसएल-04574 यासिन, आरओ  
 एसएल-04575 जगत सिंह तरवर, आरओ  
 एसएल-04576 के के नायर, आरओ  
 एसएल-04577 भगत सिंह नेगी, इंजीनियर्स  
 एसएल-04578 श्री राम अटल, आरओ  
 एसएल-04580 दलजिन्दर सिंह, इंजीनियर्स

एसएल-04581 अमूल श्री कांत देसाई, ईएमई  
 एसएल-04582 जगदीश चन्द्र पंत, ईएमई  
 एसएल-04583 भोसले अशोक कृष्णाजी, आरओ  
 एसएल-04584 मणिकांदन वी, आरओ  
 एसएल-04585 के शंकर, आरओ  
 एसएल-04586 बी रामाचन्द्रन, आरओ  
 एसएल-04587 कामालक्षण एम के, सिग्नल  
 एसएल-04589 निरंजन सिंह, ईएमई  
 एसएल-04590 अर्जुन सिंह चीमा, ईएमई  
 एसएल-04591 रानू सिंह राज पुरोहित, आर्टी  
 एसएल-04592 मदन लाल शर्मा, आरओ  
 एसएल-04593 राज कुमार सिंह, आरओ

--30 अप्रैल 2011

एसएल-05072 विजय पाल सिंह तोमर, क्यूएम  
 एसएल-05081 रतन सिंह, साइफर  
 एसएल-05083 चन्दर सिंह, क्यूएम  
 एसएल-05087 रमेश कुमार रसैली, क्यूएम  
 एसएल-05094 एस मुरुगेसन, साइफर  
 एसएल-05097 बलवन्त सिंह, साइफर  
 एसएल-05098 पुलक कुमार हाजरा, साइफर  
 एसएल-05099 रेशम सिंह, साइफर  
 एसएल-05102 अशीम कुमार घोष, साइफर  
 एसएल-05106 मोहम्बद सलीम, एओ  
 एसएल-05107 के सुजान सिंह, साइफर  
 एसएल-05116 राजिन्दर प्रसाद गुलेरिया, क्यूएम  
 एसएल-05117 रोहतास सिंह, टीईओ  
 एसएल-05104 नारायणन नायर के, ईएमई(ईई)  
 एसएल-05114 कृष्णा बहारदुर खत्री, एलक्यूएम

--13 दिसम्बर 2010

प्रभात रॉस  
 उप निदेशक  
 एमएस 8-सी

सं. 526, दिनांक 19 अक्टूबर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एएमसी अधिकारी की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर के पद पर

मुकुल गुप्ता (एमएस-15430एफ)(एमआर-09098ए), एएमसी, 22 जनवरी 2011

कप्तान के पद पर

दीपू वी जोय (एमआर-09031एफ), एएमसी 10 फरवरी 2011

अंकुर रावत (एमआर-09008एन), एएमसी 10 फरवरी 2011

दीप शिखा (एमआर-08997पी), एएमसी 10 फरवरी 2011

निधि गर्ग (एमआर-08995के), एएमसी 10 फरवरी 2011

के वी विनू बलराम (एमआर-08984एक्स), एएमसी 10 फरवरी 2011

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मासं)

-----

सं. 527, दिनांक 19 अक्टूबर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

कोर ऑफ इंजीनियर्स

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार आशिष कुमार सिंह सेंगर (सं. 1480750एन अब जेसी-339536एल), 30 अप्रैल 2011&

हवलदार बाबु लाल (सं. 1482370एन अब जेसी-339537एन), 30 मई 2011^

हवलदार राजेश्वर प्रसाद (सं. 1482415एच अब जेसी-339538डब्ल्यू), 01 जून 2011#

हवलदार कप्तान सिंह (सं. 1482441के अब जेसी-339539वाई), 01 जून 2011#

हवलदार इन्द्र पाल सिंह (सं. 1482448एन अब जेसी-339540एन), 07 जून 2011#

हवलदार सुरेशानंद (सं. 1482478एल अब जेसी-339541डब्ल्यू), 01 जून 2011#

हवलदार सोबन सिंह (सं. 1482479एन अब जेसी-339542वाई), 01 जून 2011#

हवलदार बच्चा बाबू सिंह (सं. 1482513एच अब जेसी-339543एफ), 01 जून 2011#

हवलदार प्रबदयाल सिंह (सं. 1482565वाई अब जेसी-339544के), 01 जून 2011#

हवलदार लाहि राम बासुमत्रि (सं. 1481778ए अब जेसी-339545एम), 04 जून 2011#

हवलदार रमेश सिंह (सं. 1482600डब्ल्यू अब जेसी-339546पी), 01 जून 2011#

हवलदार सोमवीर (सं. 1482610ए अब जेसी-339547एक्स), 01 जून 2011#

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार नरेंद्र सिंह (सं. 6389708डब्ल्यू अब जेसी-339548ए), 24 मई 2011\$

हवलदार परमानंद (सं. 1484969ए अब जेसी-339549एच), 11 जून 2011#

हवलदार कुलदीप (सं. 1484970पी अब जेसी-339550एक्स), 01 जून 2011#

हवलदार राजेश कुमार (सं. 1484978एफ अब जेसी-339551ए), 01 जून 2011#

हवलदार राजेश कुमार (सं. 1484984पी अब जेसी-339552एच), 01 जून 2011#

हवलदार सत नारायण (सं. 1484988एल अब जेसी-339553एल), 01 जून 2011#

हवलदार शिवा बहादुर सिंह (सं. 1484996के अब जेसी-339554एन), 01 जून 2011#

हवलदार शिवा दर्शन पाल (सं. 1484262एच अब जेसी-339555डब्ल्यू), 01 जून 2011#

हवलदार ललित कुमार (सं. 1484283वाई अब जेसी-339556वाई), 01 जून 2011#

हवलदार राम निवास (सं. 1484867के अब जेसी-339557एफ), 01 जून 2011#

हवलदार मदन मोहन मोहापात्रा (सं. 1484853के अब जेसी-339558के), 02 जून 2011#

हवलदार धर्म वीर सिंह (सं. 6389731के अब जेसी-339559एम), 01 जून 2011#

हवलदार महेश चौधरी (सं. 1484845एल अब जेसी-339560एफ), 01 जून 2011#

हवलदार हजारे गजेंद्र देवीदास (सं. 6389959ए अब जेसी-339561के), 01 जून 2011#

हवलदार अत्तर वजीर अलावक्स (सं. 6390019एफ अब जेसी-339562एम), 01 जून 2011#

हवलदार सुख राम सिंह (सं. 1484893एल अब जेसी-339563पी), 01 जून 2011#

नायब सूबेदार सर्वे के रैंक में

हवलदार श्री राम (सं. 1480464एम अब जेसी-339564एक्स), 01 जून 2011#

हवलदार संतोष सिंह (सं. 1480565ए अब जेसी-339565ए), 01 जून 2011#

हवलदार लाल बहादुर सिंह (सं. 1480520ए अब जेसी-339566एच), 01 जून 2011#

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 मार्च 2011)

^(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मई 2011)

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011)

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार उमेश कुमार तिवारी (सं. 1481661एफ अब जेसी-339514एम), 05 अप्रैल 2011&

हवलदार अनिल व्यास (सं. 15336196पी अब जेसी-339515पी), 24 अप्रैल 2011@

हवलदार ओम सिंह (सं. 1482110एच अब जेसी-339516एक्स), 28 अप्रैल 2011%

हवलदार नरेश कुमार डोब्रीयाल (सं. 1482355वाई अब जेसी-339517ए), 01 मई 2011#

हवलदार रमेश चंद्र पंथरी (सं. 1482406एफ अब जेसी-339518एच), 01 मई 2011#

हवलदार सरवेश्वर प्रसाद (सं. 1482411एम अब जेसी-339519एल), 01 मई 2011#

हवलदार राज बहादुर यादव (सं. 1482432एच अब जेसी-339520ए), 01 जून 2011\$

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार संजय कुमार सिंह (सं. 1484595पी अब जेसी-339521एच), 09 मई 2011^

हवलदार मोहन सिंह (सं. 6389950एल अब जेसी-339522एल), 02 मई 2011#

हवलदार पडवाल बबन सुदाम (सं. 6389977एच अब जेसी-339523एन), 02 मई 2011#

हवलदार बाबु लाल (सं. 6389985एफ अब जेसी-339524डब्ल्यू), 02 मई 2011#

हवलदार सुनील कुमार राय (सं. 6389989एक्स अब जेसी-339525वाई), 02 मई 2011#

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 6389997डब्ल्यू अब जेसी-339526एफ), 02 मई 2011#

हवलदार वर्मा बसंत लाल (सं. 6390005एफ अब जेसी-339527के), 01 मई 2011#

हवलदार जडेजा इंद्रजीत सिंह बहादुर सिंह (सं. 6390035वाई अब जेसी-339528एम), 01 मई 2011#

हवलदार ककाडे रमेश जगर नाथ (सं. 6390039पी अब जेसी-339529पी), 01 मई 2011#

हवलदार जाधव खंडू मारुती (सं. 6390041एम अब जेसी-339530के), 01 मई 2011#

हवलदार चवन नित्यानंद चंद्रनाथ (सं. 6390045एच अब जेसी-339531एम), 02 मई 2011#

नायब सूबेदार सर्वे के रैंक में

हवलदार रामा शंकर प्रसाद (सं. 1480517ए अब जेसी-339532पी), 02 मई 2011#

हवलदार हेम चंद्र लोहानी (सं. 15344402एच अब जेसी-339533एक्स), 04 मई 2011#

हवलदार कृतार्थ शंकर साहू (सं. 15344333एक्स अब जेसी-339534ए), 01 मई 2011#

हवलदार देवब्रता सिंहा (सं. 15344335एच अब जेसी-339535एच), 09 मई 2011#

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010)

^(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011)

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 फरवरी 2011)

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011)

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011)

## बंगाल इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (सैन्य अभियन्ता सेवा) के रैंक में

पद, नाम, आर्मी नं., जेसी नं., पदोन्नति की तारीख और रिमाक्स

हवलदार जितेन्द्रा यादव (सं. 1491369ए अब जेसी-332227ए),  
29 नवम्बर 2010Gहवलदार ब्रिजजीथ कुमार वी एन (सं. 1583336पी अब  
जेसी-332228एच), 29 नवम्बर 2010Gहवलदार स्वराज सिंह वर्मा (सं. 1586924एन अब जेसी-332229एल),  
29 नवम्बर 2010Gहवलदार लाल बाबू (सं. 1491895वाई अब जेसी-332230ए),  
27 जनवरी 2011Gहवलदार चवान संतोष शिवाजी (1586281एफ अब जेसी-332231एच),  
27 नवम्बर 2010Gहवलदार पवन कुमार (सं. 1489465डब्ल्यू अब जेसी-332232एल),  
18 जनवरी 2011Gहवलदार एन मिनी रेड्डी (सं. 1489900ए अब जेसी-332233एन),  
07 दिसम्बर 2010Gहवलदार स्वदेश कुमार (सं. 1491719एफ अब जेसी-332234डब्ल्यू),  
06 दिसम्बर 2010Gहवलदार त्रिवेणी कुमार बाजपेयी (सं. 1491759एच अब  
जेसी-332235वाई), 07 दिसम्बर 2010Gहवलदार चन्द्रा शेखर पलई (सं. 1492315एल अब जेसी-332236एफ),  
07 दिसम्बर 2010Gहवलदार विरेन्द्र सिंह (सं. 1494236पी अब जेसी-332237के),  
06 दिसम्बर 2010Gहवलदार योगेश कुमार रावत (सं. 15313369पी अब जेसी-  
332238एम), 07 दिसम्बर 2010Gहवलदार बोरी बंधु साहू (सं. 1586436एल अब जेसी-332239पी),  
06 दिसम्बर 2010Gहवलदार सलवी संजय रामचंद्रा (सं. 1587391एच अब जेसी-  
332240के), 08 दिसम्बर 2010Gहवलदार रविन्द्रा सिंह (सं. 1588751ए अब जेसी-332241एम),  
11 जनवरी 2011Gहवलदार भगीरथ घोष (सं. 1587893एल अब जेसी-332242पी),  
28 दिसम्बर 2010Gहवलदार प्रमोद कुमार (सं. 1491954ए अब जेसी-332243एक्स),  
05 जनवरी 2011Gहवलदार सूरज महातो (सं. 15314298एल अब जेसी-332244ए),  
06 जनवरी 2011Gहवलदार समीर मंडल (सं. 1587604एल अब जेसी-332245एच),  
07 दिसम्बर 2010Gहवलदार सोमराज गुर्जर (सं. 1581219एल अब जेसी-332246एल),  
08 मई 2010Cहवलदार पाटिल संजय दनयानदेव (सं. 1585614डब्ल्यू अब  
जेसी-332247एन), 30 नवम्बर 2010Gहवलदार तिलक चंद ध्यानी (सं. 1484056वाई अब  
जेसी-332248डब्ल्यू), 29 जनवरी 2011Gहवलदार रवेन्द्रा सिंह (सं. 1488531एफ अब जेसी-332249वाई),  
12 जनवरी 2011Gहवलदार कुलदीप सिंह (सं. 1488422पी अब जेसी-332250एन),  
29 नवम्बर 2010Gहवलदार निरंजन सिंह (सं. 1482739एन अब जेसी-332251डब्ल्यू),  
05 जनवरी 2011Gहवलदार दीपक सिंह रावत (सं. 1489681के अब जेसी-332252वाई),  
22 नवम्बर 2010Gहवलदार विष्णु कुमार दरनाल (सं. 1492627एफ अब  
जेसी-332253एफ), 06 दिसम्बर 2010Gहवलदार सुनील कुमार गुप्ता (सं. 1494302एम अब जेसी-332254के),  
19 नवम्बर 2010Gहवलदार वट लक्ष्मन सहदियो (सं. 1585370एन अब  
जेसी-332255एम), 09 दिसम्बर 2010Gहवलदार के सीनिवासन (सं. 15312138एम अब जेसी-332256पी),  
02 दिसम्बर 2010Gहवलदार आर वेंकटेशन (सं. 15316197डब्ल्यू अब  
जेसी-332257एक्स), 24 नवम्बर 2010Dहवलदार अब्दुल जलील (सं. 15312110एम अब जेसी-332258ए),  
29 नवम्बर 2010Bहवलदार पवनदीप सिंह (सं. 1588413एच अब जेसी-332259एच),  
26 नवम्बर 2010Bहवलदार राजेन्द्रा सिंह (सं. 1587654डब्ल्यू अब जेसी-332260एक्स),  
29 नवम्बर 2010Cहवलदार ए मुकुंद भागवत (सं. 15314269डब्ल्यू अब जेसी-332261ए),  
29 नवम्बर 2010Gहवलदार शमशेर अंसारी (सं. 1588799एन अब जेसी-332262एच),  
29 नवम्बर 2010Gहवलदार अजीत कुमार के के (सं. 15312914एफ अब  
जेसी-332263एल), 10 जनवरी 2011G



हवलदार चांद राम भनवाला (सं. 1491810एक्स अब जेसी-332264एन), 06 दिसम्बर 2010G

हवलदार राजेश कुमार (सं. 1587077पी अब जेसी-332265डब्ल्यू), 20 दिसम्बर 2010G

हवलदार राकेश कुमार शर्मा (सं. 15317965वाई अब जेसी-332266वाई), 01 दिसम्बर 2010G

हवलदार सदाफोते वाई टुकाराम (सं. 1585080डब्ल्यू अब जेसी-332267एफ), 30 नवम्बर 2010G

हवलदार प्रदीप चंद (सं. 1487856एन अब जेसी-332268के), 22 नवम्बर 2010G

हवलदार जगनाथ साधु खान (सं. 1493977ए अब जेसी-332269एम), 22 नवम्बर 2010G

हवलदार शिबु टी एल (सं. 15312737एम अब जेसी-332270एफ), 06 दिसम्बर 2010G

हवलदार राजेश कुमार (सं. 1587399पी अब जेसी-332271के), 27 नवम्बर 2010C

हवलदार संजय सिंह सोलंकी (सं. 1587488एन अब जेसी-332272एम), 08 दिसम्बर 2010C

हवलदार नरेंद्र सिंह रावत (सं. 15317988ए अब जेसी-332273पी), 29 नवम्बर 2010G

हवलदार भजन सिंह (सं. 1490140पी अब जेसी-332274एक्स), 09 दिसम्बर 2010G

हवलदार सुरेश मल्लमपति (सं. 15315913के अब जेसी-332275ए), 09 दिसम्बर 2010G

हवलदार पंकज कुमार (सं. 15344358के अब जेसी-332276एच), 08 जनवरी 2011G

हवलदार आर श्रीधर (सं. 15309686वाई अब जेसी-332277एल), 05 अक्टूबर 2010E

हवलदार हरीश चंद्रा साहू (सं. 15562903पी अब जेसी-332278एन), 05 अप्रैल 2011A

हवलदार दारेकर प्रवीन साहेब राओ (सं. 1587977वाई अब जेसी-332279डब्ल्यू), 16 फरवरी 2011G

हवलदार नरपत सिंह (सं. 1488341पी अब जेसी-332280एल), 14 फरवरी 2011G

हवलदार बिधान महातो (सं. 1494442वाई अब जेसी-332281एन), 04 जनवरी 2011G

हवलदार उदय कुमार वी एस (सं. 15309526वाई अब जेसी-332282डब्ल्यू), 10 सितम्बर 2010F

हवलदार भुनेश्वर दुबे (सं. 1488110वाई अब जेसी-332283वाई), 15 फरवरी 2011C

हवलदार राजू सिंह यादव (सं. 1493122एक्स अब जेसी-332284एफ), 29 नवम्बर 2010G

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 1485548के अब जेसी-332285के), 02 मई 2011H

हवलदार शिओ प्रसाद (सं. 1485890के अब जेसी-332286एम), 02 मई 2011H

हवलदार विश्वनाथ सिंह यादव (सं. 1486931पी अब जेसी-332287पी), 03 मई 2011H

हवलदार मनोरी वी के सुधाकर (सं. 15309673एफ अब जेसी-332288एक्स), 02 मई 2011H

हवलदार भुडाके बालकृष्ण यशवन्त (सं. 15309794एच अब जेसी-332289ए), 02 मई 2011H

हवलदार जोन्ड भानुदास नाथू (सं. 15309827एच अब जेसी-332290पी), 03 मई 2011H

हवलदार नायक रविंद्रा शाम राओ (सं. 15309875एच अब जेसी-332291एक्स), 02 मई 2011H

हवलदार साहाजान के ए (सं. 15310058डब्ल्यू अब जेसी-332292ए), 30 अप्रैल 2011H

हवलदार पेरूमल जी (सं. 15310398वाई अब जेसी-332293एच), 04 मई 2011H

हवलदार चव्हाण सुभाष काशीनाथ (सं. 1579479एक्स अब जेसी-332294एल), 05 मई 2011H

हवलदार मुक्तेश्वर तिवारी (सं. 1485978एन अब जेसी-332295एन), 02 मई 2011J

हवलदार अंतर पाल (सं. 15310257के अब जेसी-332296डब्ल्यू), 02 मई 2011H

हवलदार आनंद सिंह बिष्ट (सं. 1488764एच अब जेसी-332297वाई), 03 मार्च 2011G

हवलदार राकेश कुमार (सं. 1489778पी अब जेसी-332298एफ), 30 नवम्बर 2010G

हवलदार बालाजी आर (सं. 15313387एक्स अब जेसी-332299के), 19 मई 2011H

हवलदार ए थमील सेलवम (सं. 15309765एन अब जेसी-332300एन), 06 अक्टूबर 2010E

हवलदार बंकीम विश्वास (सं. 1486199एक्स अब जेसी-332301डब्ल्यू), 03 मई 2011J

हवलदार कृष्णा वीर सिंह (सं. 1483963एम अब जेसी-332302वाई), 10 मई 2011H

हवलदार रमा तिवारी (सं. 1486926के अब जेसी-332303एफ),  
02 मई 2011H

हवलदार के कोटायन (सं. 15309750एल अब जेसी-332304के),  
07 मई 2011H

हवलदार श्री कुमार बी (सं. 15310075डब्ल्यू अब जेसी-332305एम),  
14 मई 2011H

हवलदार ए मुथुमनी (सं. 15310246एक्स अब जेसी-332306पी), 30  
अप्रैल 2011H

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
08 मई 2009, 24 दिसम्बर 2009, 29 अप्रैल 2010, 17 जुलाई 2010,  
24 जुलाई 2010, 24 अगस्त 2010, 01 अक्तूबर 2010, 19 मार्च 2011  
और 01 अप्रैल 2011)

A ज्येष्ठता-- 08 मई 2009

B ज्येष्ठता--24 दिसम्बर 2009

C ज्येष्ठता--29 अप्रैल 2010

D ज्येष्ठता--17 जुलाई 2010

E ज्येष्ठता--24 जुलाई 2010

F ज्येष्ठता--24 अगस्त 2010

G ज्येष्ठता--01 अक्तूबर 2010

H ज्येष्ठता--19 मार्च 2011

J ज्येष्ठता--01 अप्रैल 2011

हवलदार साहुल हमीद ए (सं. 15312810ए अब जेसी-331629एल),  
30 जनवरी 2009\$

हवलदार प्रवीण कुमार (सं. 6933282एल अब जेसी-331200डब्ल्यू),03  
सितम्बर 2007#

हवलदार मुकुन्द चौधरी (सं. 1585646वाई अब जेसी-331393एफ),  
23 जून 2008@

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
09 जनवरी 2009, 17 मार्च 2007 और 27 मई 2008)

\$ ज्येष्ठता--09 जनवरी 2009

# ज्येष्ठता--17 मार्च 2007

@ ज्येष्ठता--27 मई 2008

-----  
मद्रास इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (लिपिक एसडी) के पद में

पद, नाम, नम्बर, जेसी नम्बर और पदोन्नति की तिथि

हवलदार लिपिक (एसडी) लक्ष्मन सिंह बिष्ट (सं. 15306629एम अब  
जेसी-309979एक्स), 12 जनवरी 2011 \*

हवलदार लिपिक (एसडी) एनआरआई सिंह (सं. 15308313वाई अब  
जेसी-309980एम), 26 मार्च 2011\*

हवलदार लिपिक (एसडी) चंद्रकांत हुगर (सं. 15308336ए अब  
जेसी-309981पी), 01 जनवरी 2011

हवलदार लिपिक (एसडी) ए गुरुमूर्ति (सं. 15308572एफ अब  
जेसी-309982एक्स), 01 जनवरी 2011

हवलदार लिपिक (एसडी) दसरथ कुमार (सं. 7240510पी अब  
जेसी-309983ए), 01 जनवरी 2011

हवलदार लिपिक (एसडी) अमरजीत सिंह (सं. 2684942एच अब  
जेसी-309984एच), 01 जनवरी 2011

हवलदार लिपिक (एसडी) जे एच बाबू (सं. 15308680एल अब  
जेसी-309985एल), 01 जनवरी 2011

हवलदार लिपिक (एसडी) एम बालाकृष्णन (सं. 15308685के अब  
जेसी-309986एन), 30 जनवरी 2011\*

हवलदार लिपिक (एसडी) एंटेनी क्रूस ए (सं. 15308801एफ अब  
जेसी-310010डब्ल्यू), 15 फरवरी 2011@

हवलदार लिपिक (एसडी) रामामोहनन के (सं. 15308840ए अब  
जेसी-310011वाई), 01 फरवरी 2011

हवलदार लिपिक (एसडी) चंद्रन टी (सं. 15308841एच अब  
जेसी-310012एफ), 01 फरवरी 2011

हवलदार लिपिक (एसडी) एस संतोष कुमार (सं. 15308896एम अब  
जेसी-310013के), 02 फरवरी 2011@

हवलदार लिपिक (एसडी) सुभेंदु कुमार डीई (सं. 2684997एम अब  
जेसी-310014एम), 02 फरवरी 2011@

हवलदार लिपिक (एसडी) सैलेश कुमार नायक (सं. 7240519के अब  
जेसी-310015पी), 01 फरवरी 2011

हवलदार लिपिक (एसडी) वी देवा दोस (सं. 2685026एन अब  
जेसी-310076एम), 06 मई 2011\$

हवलदार लिपिक (एसडी) आर मुथु कुमार (सं. 15309082ए अब  
जेसी-310077पी), 01 मई 2011

हवलदार लिपिक (एसडी) एस रविचंद्रन (सं. 15309085एन अब  
जेसी-310078एक्स), 01 मई 2011

हवलदार लिपिक (एसडी) के नल्ला थम्बी (सं. 15309088एफ अब  
जेसी-310079ए), 13 मई 2011\$

नायब सूबेदार (एसकेटी) के पद में

हवलदार (एसकेटी) ज़ोरे बालाचंद्रना रामाचन्द्रा (सं. 15308794डब्ल्यू  
अब जेसी-310054एन), 09 अप्रैल 2011#

हवलदार (एसकेटी) वेंकट रामन जी (सं. 15309096ए अब जेसी-  
310055डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011

हवलदार (एसकेटी) पी सुरेश (सं. 15309100एक्स अब जेसी-310056वाई), 25 मई 2011#

हवलदार (एसकेटी) सुरेश कुमार एम (सं. 15309296डब्ल्यू अब जेसी-310057एफ), 09 अप्रैल 2011#

हवलदार (एसकेटी) अलेक्स थोमस (सं. 15309429एफ अब जेसी-310080पी), 01 मई 2011

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011से दी जाती है)

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011से दी जाती है)

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

रैंक, नाम, नम्बर, जेसी नं., पदोन्नति की तिथि और ज्येष्ठता की तिथि वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना

हवलदार (जी डी) एस डोमनिक साविओ (सं. 15301478पी अब जेसी-309769एक्स), 12 फरवरी 2011/01 मई 2010

हवलदार (जी डी) सी संकर (सं. 15305318एम अब जेसी-309869एच), 14 मार्च 2011/01 सितम्बर 2010

हवलदार (जी डी) के सी धनमजया नायडु (सं. 1384952एक्स अब जेसी-310058के), 01 अप्रैल 2011/18 दिसम्बर 2010

हवलदार (जी डी) बूपानी सी एच बालागुरुवैया (सं. 15302811पी अब जेसी-309987डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) के दक्षिणामूर्थि (सं. 15302858ए अब जेसी-309988वाई), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) बाबु डी (सं. 15302931एन अब जेसी-309989एफ), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) एस बास्करन (सं. 15303085एक्स अब जेसी-309990डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) एच मिनाक्षी सुंदरम (सं. 15303090एच अब जेसी-309991वाई), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) नागप्पा बी हर्नसि (सं. 15303092एन अब जेसी-309992एफ), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) वी रामालिंगय्या (सं. 15303017के अब जेसी-309993के), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) एम सेल्वाराज (सं. 15303095एफ अब जेसी-309994एम), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) पी निर्मल राज (सं. 15303097एम अब जेसी-309995पी), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) एम रामासामी (सं. 15303060एल अब जेसी-309996एक्स), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) पी संतोष कुमार (सं. 15303109डब्ल्यू अब जेसी-309997ए), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) बोमका सुब्बा रेड्डी (सं. 15303129के अब जेसी-309998एच), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) अनिल बी (सं. 15303196पी अब जेसी-309999एल), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) एल सिल्वेस्टर (सं. 15303216एक्स अब जेसी-310000एम), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) ए एस वेंकटेशुलु (सं. 15303175वाई अब जेसी-310001पी), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) पद्मनाभन एन (सं. 15303237एन अब जेसी-310002एक्स), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) सुभाष (सं. 15303296ए अब जेसी-310003ए), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) सुनील कुमार के (सं. 15303379एल अब जेसी-310004एच), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) एन बाला मदुलेटी (सं. 15303500एन अब जेसी-310005एल), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) संतोष कुमार आर (सं. 15303551एफ अब जेसी-310006एन), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) के सैम्यूएल दौस (सं. 15303569एक्स अब जेसी-310007डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) ओमनाकुट्टन पिल्लै ए (सं. 15303630डब्ल्यू अब जेसी-310008वाई), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

हवलदार (जी डी) शेक खादर वलि (सं. 15303653एक्स अब जेसी-310016एक्स), 02 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) के थनंगेश्वरन (सं. 15303673एल अब जेसी-310017ए), 10 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) मनु के (सं. 15317836वाई अब जेसी-310018एच), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) सैजु सी एम (सं. 15318428ए अब जेसी-310019एल), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) ए जेसु राजन (सं. 15303726वाई अब जेसी-310020ए), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) सोमासुंदरम पी के (सं. 15303751एक्स अब जेसी-310021एच), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) मधु कुमार बी (सं. 15303769एन अब जेसी-310022एल), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) पंकाजकशन के टी (सं. 15303882एच अब जेसी-310024डब्ल्यू), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) गोपाकुमार के (सं. 15303894एक्स अब जेसी-310025वाई), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) बी श्यामा सुंदरा राव (सं. 15303910के अब जेसी-310026एफ), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) भिमप्पा सौदी (सं. 15304083वाई अब जेसी-310027के), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) एम सौंदरा राजन (सं. 15304141एक्स अब जेसी-310028एम), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) सिवासामी के के (सं. 15304145एन अब जेसी-310029पी), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) बालप्पा हिरेहोली (सं. 15304202के अब जेसी-310030के), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) के अर्जुनन (सं. 15304340एल अब जेसी-310031एम), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) टी जे एल सीथारामय्या (सं. 15302483एम अब जेसी-310032पी), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) मोज्जाडा शंकरा राव (सं. 15302781एच अब जेसी-310033एक्स), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) एस धनमजया नायडु (सं. 15302919एम अब जेसी-310034ए), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) अनुंबलगन जी (सं. 15304385एल अब जेसी-310074एफ), 01 मई 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) जया प्रकाश के (सं. 15304418एल अब जेसी-310035एच), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) वाघ मारे कुमार (सं. 15304474के अब जेसी-310036एल), 02 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) बंदारु सूरि बाबू (सं. 15304665वाई अब जेसी-310037एन), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) मुथोगी यादगिरी (सं. 15304758एन अब जेसी-310038डब्ल्यू), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) पोन्नाडा त्रिनादा राव (सं. 15304787एच अब जेसी-310039वाई), 01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

हवलदार (जी डी) थिरुवेंगादम वी (सं. 15304854एच अब जेसी-310040एन), 14 मार्च 2011/01 मार्च 2011

हवलदार (जी डी) गुरुसामी पी (सं. 15304883एक्स अब जेसी-310041डब्ल्यू), 01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

हवलदार (जी डी) ए सेकरन (सं. 15304931एम अब जेसी-310042वाई), 01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

हवलदार (जी डी) जी पेरुमल सामी (सं. 15304939वाई अब जेसी-310043एफ), 01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

हवलदार (जी डी) पपिथी सरदैय्या (सं. 15305015एक्स अब जेसी-310044के), 01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

हवलदार (जी डी) सरवनन के (सं. 15305196एन अब जेसी-310045एम), 01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

हवलदार (जी डी) पिपाला रामाकृष्णा (सं. 15305222के अब जेसी-310046पी), 01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

हवलदार (जी डी) गोसे जिलानी एम डी (सं. 15305264डब्ल्यू अब जेसी-310047एक्स), 01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

हवलदार (जी डी) एस वेंकटेश्वरन (सं. 15305314डब्ल्यू अब जेसी-310048ए), 01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

हवलदार (जी डी) पी बी सुनिल (सं. 15305376डब्ल्यू अब जेसी-310049एच), 01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

हवलदार (जी डी) आर श्रीनिवासा राव (सं. 15305415के अब जेसी-310050एक्स), 01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

हवलदार (जी डी) जसवंत सिंह (सं. 15305441एल अब जेसी-310051ए), 01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

हवलदार (जी डी) एम गोपाल (सं. 15305457डब्ल्यू अब जेसी-310052एच), 01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

हवलदार (जी डी) नल्लाना दसरधाराव (सं. 15305592के अब जेसी-310053एल), 14 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

हवलदार (जी डी) जी सिवाकुमार (सं. 15305686एफ अब जेसी-310059एम), 01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

हवलदार (जी डी) नागामुथू एस (सं. 15305786एम अब जेसी-310060एफ), 01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

हवलदार (जी डी) वी सेल्वाराज (सं. 15305794एल अब जेसी-310061के), 01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

हवलदार (जी डी) एस धर्मासिंगम (सं. 15305798एफ अब जेसी-310062एम), 01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

हवलदार (जी डी) सिवाकुमार पी (सं. 15305901एफ अब जेसी-310063पी), 01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

हवलदार (जी डी) मनोज कुमार एन (सं. 15305909एन अब जेसी-310064एक्स), 01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

हवलदार (जी डी) पी अरुनाचलम (सं. 15305930डब्ल्यूअब जेसी-310065ए), 01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

हवलदार (जी डी) मोहम्मद रफी (सं. 15305959वाई अब जेसी-310066एच), 01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

हवलदार (जी डी) मुथिरैड्डीगरी (सं. 15305976वाई अब जेसी-310067एल), 01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

हवलदार (जी डी) जे मरिया अरोक्यम (सं. 15306008एन अब जेसी-310068एन), 01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

हवलदार (जी डी) चिन्नासामी एस (सं. 15306041एल अब जेसी-310069डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

हवलदार (जी डी) वेंकटेशन टी (सं. 15306050एम अब जेसी-310070एल), 01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

हवलदार (जी डी) एन हरिबाबू रेड्डी (सं. 15306095एम अब जेसी-310071एन), 01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

हवलदार (जी डी) मोहम्मद जॉन शाइदा (सं. 15306146पी अब जेसी-310072डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

हवलदार (जी डी) सुन्दर एम (सं. 15306149एच अब जेसी-310073वाई), 01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

हवलदार (जी डी) प्रदीप कुमार पीपी (सं. 15306192के अब जेसी-310075के), 01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

#### बम्बई इंजीनियर ग्रुप

#### नायब सूबेदार जी डी के रैंक में

हवलदार (जीडी) केश पाल (सं. 1577711वाई अब जेसी-351848एन), 04 जुलाई 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) मेजर सिंह (सं. 1577446एन अब जेसी-351850एल), 09 जुलाई 2011

हवलदार (जीडी) रेशम सिंह (सं. 1577576डब्ल्यू अब जेसी-351851एन), 01 जून 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) हरी सिंह (सं. 1577965डब्ल्यूअब जेसी-351862ए), 01 जुलाई 2011

हवलदार (जीडी) श्री राम शर्मा (सं. 1577967एफ अब जेसी-351863एच), 02 जुलाई 2011

हवलदार (जीडी) अमरीक सिंह (सं. 1577987पी अब जेसी-351864एल), 01 जुलाई 2011

हवलदार (जीडी) बलजिंदर सिंह (सं. 1578022के अब जेसी-351865एन), 01 जुलाई 2011

हवलदार (जीडी) जसवंत सिंह (सं. 1578023एम अब जेसी-351866डब्ल्यू), 01 जुलाई 2011

हवलदार (जीडी) राम सुभाष सिंह (सं. 1578049एफ अब जेसी-351867वाई), 04 जुलाई 2011

हवलदार (जीडी) कशमीर सिंह (सं. 1578091ए अब जेसी-351868एफ), 01 जुलाई 2011

हवलदार (जीडी) हरपाल सिंह (सं. 1578096वाई अब जेसी-351869के), 01 जुलाई 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) कुलवंत सिंह (सं. 1576804एफ अब जेसी-351816एल), 29 मई 2011

हवलदार (जीडी) लतीफ अहमद (सं. 1583656के अब जेसी-351817एन), 26 मई 2011

हवलदार (जीडी) योगेंद्र राय (सं. 1584166एच अब जेसी-351818डब्ल्यू), 02 मई 2011

हवलदार (जीडी) एन जी अमुथोई सिंह (सं. 15566375एन अब जेसी-351819वाई), 02 मई 2011

हवलदार (जीडी) पाटील जितेंद्र धनराज (सं. 1577429एन अब जेसी-351820एन), 15 मई 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) लाभ सिंह (सं. 1577419के अब जेसी-351831ए), 01 जून 2011

हवलदार (जीडी) ईरशाद हुसैन (सं. 1577466एफ अब जेसी-351832एच), 01 जून 2011

हवलदार (जीडी) मोहम्मद शाहिद (सं. 1576792एक्स अब जेसी-351833एल), 01 जून 2011

हवलदार (जीडी) महावीर सिंह (सं. 1577560एल अब जेसी-351834एन), 01 जून 2011

हवलदार (जीडी) नईम हैदर (सं. 1577607एल अब जेसी-351835डब्ल्यू), 01 जून 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) हरचरन सिंह (सं. 1577676एफ अब जेसी-351836वाई), 01 जून 2011

हवलदार (जीडी) शमशेर सिंह (सं. 1577679पी अब जेसी-351837एफ), 01 जून 2011

हवलदार (जीडी) अंग्रेज सिंह (सं. 1577724डब्ल्यू अब जेसी-351838के), 01 जून 2011

हवलदार (जीडी) ददन शर्मा (सं. 1577710डब्ल्यू अब जेसी-351839एम), 01 जून 2011

हवलदार (जीडी) तरसेम सिंह (सं. 1577746पी अब जेसी-351840एफ), 01 जून 2011

हवलदार (जीडी) जसपाल सिंह (सं. 1577752एच अब जेसी-351841के), 01 जून 2011

हवलदार (जीडी) प्रकाश नारायण शुक्ला (सं. 1577779ए अब जेसी-351842एम), 01 जून 2011

हवलदार (जीडी) बिरेंद्र सिंह यादव (सं. 1577782ए अब जेसी-351843पी), 01 जून 2011

हवलदार (जीडी) मुख्त्यार सिंह (सं. 1577784एल अब जेसी-351844एक्स), 01 जून 2011

हवलदार (जीडी) जय राम सिंह यादव (सं. 1577799एन अब जेसी-351845ए), 01 जून 2011

हवलदार (जीडी) दौलत राम (सं. 1577877ए अब जेसी-351846एच), 01 जून 2011

हवलदार (जीडी) जगतार सिंह (सं. 1577957एक्स अब जेसी-351847एल), 01 जून 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) सुखेन डे (सं. 15581123वाई अब जेसी-351785डब्ल्यू), 01 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) सत्यबीर सिंह यादव (सं. 1579522एन अब जेसी-351786वाई), 22 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) नायक बजरंग आनंदा (सं. 1576146ए अब जेसी-351793पी), 03 अप्रैल 2011

हवलदार (जीडी) प्रदीप कुमार सिंह (सं. 1577138एन अब जेसी-351794एक्स), 02 मई 2011

हवलदार (जीडी) राम बिनोद तिवारी (सं. 14614031वाई अब जेसी-351795ए), 28 अप्रैल 2011

हवलदार (जीडी) भरत मधुकर रामदास (सं. 1580926एच अब जेसी-351796एच), 13 अप्रैल 2011

हवलदार (जीडी) रणबीर सिंह (सं. 1580506एच अब जेसी-351797एल), 20 अप्रैल 2011

हवलदार (जीडी) जगबीर (सं. 1677163एम अब जेसी-351798एन), 14 अप्रैल 2011

हवलदार (जीडी) शेख खुन्वूस तुराब (सं. 1578709एन अब जेसी-351799डब्ल्यू), 09 अप्रैल 2011

हवलदार (जीडी) जी डी सुरेंद्र पाल (सं. 1579137के अब जेसी-351806ए), 21 अप्रैल 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) माने जगननाथ गणपत (सं. 1579860एल अब जेसी-351802एल), 02 मई 2011

हवलदार (जीडी) सुभाष भिकाजी चव्हाण (सं. 1577239एफ अब जेसी-351803एन), 02 मई 2011

हवलदार (जीडी) अबदुल खालीक (सं. 1577227एम अब जेसी-351804डब्ल्यू), 06 मई 2011

हवलदार (जीडी) नारायण सिंह (सं. 1577257के अब जेसी-351805वाई), 01 मई 2011

हवलदार (जीडी) सातपुते बजरंग भिमाजी (सं. 1577289एम अब जेसी-351806एफ), 01 मई 2011

हवलदार (जीडी) बखशीश सिंह (सं. 1580443एल अब जेसी-351807के), 01 मई 2011

हवलदार (जीडी) हरभजन सिंह (सं. 1581091एल अब जेसी-351808एम), 01 मई 2011

हवलदार (जीडी) अशोक कुमार (सं. 1582361एफ अब जेसी-351809पी), 01 मई 2011

हवलदार (जीडी) जसपाल सिंह (सं. 1582418एल अब जेसी-351810के), 10 मई 2011

हवलदार (जीडी) वीर संतोष सम्पत (सं. 1583120एन अब जेसी-351811एम), 01 मई 2011

हवलदार (जीडी) परमिंदर सिंह (सं. 1583262एल अब जेसी-351812पी), 01 मई 2011

हवलदार (जीडी) गुरमीत सिंह (सं. 1583899पी अब जेसी-351813एक्स), 01 मई 2011

हवलदार (जीडी) जगदीश सिंह (सं. 1575790ए अब जेसी-351814ए), 07 मई 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार क्लर्क एस डी के रैंक में

हवलदार (क्लर्क एस डी) बिजेंद्र सिंह (सं. 6932068डब्ल्यू अब जेसी-351849डब्ल्यू), 02 जुलाई 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एस डी) निर्मल मिस्त्री (सं. 6932384पी अब जेसी-351852डब्ल्यू), 02 जुलाई 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) सौमेन मैती (सं. 6932410एल अब जेसी-351853वाई), 01 जुलाई 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) राम सदन भट्टाचार्य (सं. 6932431एफ अब जेसी-351854एफ), 01 जुलाई 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) राम बिलाश (सं. 1582421एल अब जेसी-351855के), 01 जुलाई 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) गुरमीत सिंह (सं. 1582476पी अब जेसी-351856एम), 02 जुलाई 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) जीत सिंह (सं. 1582489एम अब जेसी-351857पी), 02 जुलाई 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) राकेश बहादुर सिंह (सं. 6389854डब्ल्यू अब जेसी-351858एक्स), 04 जुलाई 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) कुंवर पाल सिंह (सं. 6389867एन अब जेसी-351859ए), 02 जुलाई 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) आनंद प्रकाश गौड (सं. 6389871डब्ल्यू अब जेसी-351860पी), 01 जुलाई 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एस डी) संजय कुमार (सं. 6933238एफ अब जेसी-351815एच), 16 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एस डी) जुग्गी लाल (सं. 6931517एन अब जेसी-351821डब्ल्यू), 01 जून 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) परदीप कुमार (सं. 6931555के अब जेसी-351822वाई), 01 जून 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) प्रदीप कुमार (सं. 6931843डब्ल्यू अब जेसी-351823एफ), 01 जून 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) पालकर महादेव त्रिंबक (सं. 1582060एक्स अब जेसी-351824के), 01 जून 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) तुलसी राम गुर्जर (सं. 1582308डब्ल्यू अब जेसी-351825एम), 01 जून 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) गदादर मिदया (सं. 6932385एक्स अब जेसी-351826पी), 01 जून 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) भिव सिंह (सं. 1582310एन अब जेसी-351827एक्स), 01 जून 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) अवतार सिंह (सं. 1582377एम अब जेसी-351828ए), 01 जून 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) अनिल कुमार मिश्रा (सं. 1582391वाई अब जेसी-351829एच), 01 जून 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एस डी) धीरेंद्र सिंह (सं. 6933268वाई अब जेसी-351787एफ), 18 अप्रैल 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) अजीत प्रसाद (सं. 6933285वाई अब जेसी-351788के), 11 अप्रैल 2011

हवलदार (क्लर्क एस डी) महताब अहमद खान (सं. 1581615एफ अब जेसी-351789एम), 08 अप्रैल 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एस डी) आचार्य सौवियर शोशाचार्य (सं. 6389541एक्स अब जेसी-351801एच), 02 मई 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार एसकेटी के रैंक में

हवलदार (एसकेटी) निचाम विठ्ठल नारायण (सं. 1587426एन अब जेसी-351790एफ), 20 अप्रैल 2011

हवलदार (एसकेटी) सुनील कुमार (सं. 1587486एच अब जेसी-351791के), 28 अप्रैल 2011

हवलदार (एसकेटी) छतीश कुमार नायक (सं. 1587596एक्स अब जेसी-351792एम), 21 अप्रैल 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (एसकेटी) संदीप कुंडू (सं. 1587602ए अब जेसी-351830एक्स), 01 जून 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (एसकेटी) मुक्तीपाडा गेन (सं. 1587605एन अब जेसी-351861एक्स), 12 जुलाई 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार आरटी के रैंक में

रिकरुट आर टी श्री राम दत्त पांडे (सं. 351680एम अब जेसी-351680एम), 07 मई 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ बिना ज्येष्ठता 07 मई 2011 से दी जायेगी)

अलका जोशी  
अवर सचिव

## थल सेना शाखा

सं. 528, दिनांक 20 अक्टूबर 2011—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

## स्थायी थल सेना

## सेना चिकित्सा कोर

## स्थायी सूबेदार (लैंब असिस्टेन्ट/लैंब तकनीशियन)

नायब सूबेदार अजय कुमार उपाध्याय (जेसी-697082एम), 01 जून 2009

नायब सूबेदार जगमाल सिंह (जेसी-696091एफ), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार (जेसी-696215एल), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार सजीवन एन के (जेसी-696715एच), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार प्रेसन्ना कुमार वी जे (जेसी-696393एन), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार पालस बन्धोपाध्याय (जेसी-696857ए), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार नरेन्द्र नाथ पाण्डेय (जेसी-696915वाई), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार आर मुथु कृष्णन (जेसी-696696एच), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार जय शंकर पाण्डेय (जेसी-696823एम), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार विभाकर कुमार हिमान्सु (जेसी-696730एक्स), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार अनिल कुमार शर्मा (जेसी-696731ए), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार अनिल कुमार कनोजिया (जेसी-696732एच), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार त्रिलोकी प्रसाद गुप्ता (जेसी-696734एन), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार करखेला सुभाश रामभाऊ (जेसी-696835एफ), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-696836के), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार रज्जू सिंह (जेसी-696838पी), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-696837एम), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार हरदीन राम कस्बा (जेसी-696839एक्स), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार शत्रुघन राजभर (जेसी-696840एम), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार संध्या कुमार तिवारी (जेसी-696841पी), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार मैथ्यू टी वी (जेसी-696098एल), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार प्यारेलाल जखमोला (जेसी-696842एक्स), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार काली प्रसाद मिश्रा (जेसी-696843ए), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार अशोक सिंह भदोरिया (जेसी-696851वाई), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार रामसजीवन पाण्डेय (जेसी-696852एफ), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार टेटरू महतो (जेसी-696855पी), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार पुण्डलिक पाटिल दत्तात्रेय (जेसी-696856एक्स), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार विष्णु जाधव (जेसी-696858एच), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार लक्ष्मण प्रसाद मिर्धा (जेसी-696859एल), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार अशोक कुमार शर्मा (जेसी-696860ए), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार मनी कंदन पिल्लई जे (जेसी-696861एच), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार परिकिष्ठ सिंह (जेसी-697010एच), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार दिवाकर पाठक (जेसी-697031वाई), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार महेन्द्र पाल (जेसी-697353वाई), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार शिंदे भरत जयवन्त (जेसी-697084एक्स), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार गौरी शंकर राय (जेसी-697088एन), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार बी दामोदर राव (जेसी-697386के), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार चन्द्रन एन (जेसी-697089डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार अवधेश कुमार तिवारी (जेसी-697186एन), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-697090एल), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार नागाराजन पी (जेसी-697091एन), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार नरेश कुमार तेवतिया (जेसी-697092डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार नन्द कुमार (जेसी-697447डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार एस जॉन केनेडी (जेसी-697093वाई), 01 अप्रैल 2011



नायब सूबेदार रघुवीर सिंह (जेसी-697094एफ), 01 अप्रैल 2011  
 नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-697388पी), 01 अप्रैल 2011  
 नायब सूबेदार सुभाष सिंह पनवर (जेसी-697095के), 01 अप्रैल 2011  
 नायब सूबेदार पोल्ला सिवा राजा (जेसी-697188वाई), 01 अप्रैल 2011  
 नायब सूबेदार बल्लवा त्रिपाठी (जेसी-697354एफ), 01 अप्रैल 2011  
 नायब सूबेदार देवेन्द्र नाथ प्रधान (जेसी-697450डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011  
 नायब सूबेदार साहदेव नायक (जेसी-697355के), 01 अप्रैल 2011  
 नायब सूबेदार दीन दयाल सिंह (जेसी-697356एम), 01 अप्रैल 2011  
 नायब सूबेदार एस बाबू (जेसी-697399एफ), 01 अप्रैल 2011  
 नायब सूबेदार मोहम्मद तारिक सिद्दीकी (जेसी-697357पी), 01 अप्रैल 2011  
 नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-697358एक्स), 01 अप्रैल 2011  
 स्थायी सूबेदार (ओपरेशन रूम असिस्टेंट)  
 नायब सूबेदार रेधे श्याम (जेसी-695838एच), 01 मार्च 2010  
 नायब सूबेदार बंशी लाल (जेसी-695817एम), 01 मार्च 2010  
 नायब सूबेदार सुरेश पाल (जेसी-695839एल), 01 अप्रैल 2010  
 नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-695840ए), 01 अप्रैल 2010  
 नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-695841एच), 01 अप्रैल 2010  
 नायब सूबेदार शिव नन्दन सिंह (जेसी-695818पी), 01 अप्रैल 2010  
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-695842एल), 01 अप्रैल 2010  
 नायब सूबेदार अनिरुद्धन के (जेसी-695886एच), 01 मई 2010  
 नायब सूबेदार चन्दा सीएच चिरूपती रेड्डी (जेसी-695953एच), 01 जून 2010  
 नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-695965एक्स), 01 जून 2010  
 नायब सूबेदार सुबास चन्द्र बोस (जेसी-695966ए), 01 जून 2010  
 नायब सूबेदार साहूकारी पापा राव (जेसी-695967एच), 01 जून 2010  
 नायब सूबेदार महादेव महट्टकाडे (जेसी-696020ए), 01 जून 2010  
 नायब सूबेदार बिनोद कुमार राय (जेसी-695885ए), 01 जून 2010  
 नायब सूबेदार रघुवीर सिंह (जेसी-696021एच), 01 जुलाई 2010  
 नायब सूबेदार एस मोहन रंगा (जेसी-696022एल), 01 जुलाई 2010  
 नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद चौरसिया (जेसी-695991वाई), 01 जुलाई 2010  
 नायब सूबेदार एन रविचन्द्रन (जेसी-696013के), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-696015पी), 01 अगस्त 2010  
 नायब सूबेदार जीवेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-696026एफ), 01 अगस्त 2010  
 नायब सूबेदार कनवर पाल (जेसी-696087वाई), 01 अगस्त 2010  
 नायब सूबेदार बिस्व कर्मा सिंह (जेसी-696202एन), 01 अगस्त 2010  
 नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-696088एफ), 01 सितम्बर 2010  
 नायब सूबेदार शिव चरन सिंह (जेसी-696101ए), 01 सितम्बर 2010  
 नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-696102एच), 01 सितम्बर 2010  
 नायब सूबेदार कृष्णा नन्दी (जेसी-696103एल), 01 सितम्बर 2010  
 नायब सूबेदार देशमुख मंगल सिंह दौलत राव (जेसी-696075के), 01 सितम्बर 2010  
 नायब सूबेदार गायकवाड भाष्कर नाथू (जेसी-696205एफ), 01 सितम्बर 2010  
 नायब सूबेदार ऋषि राम (जेसी-696206के), 01 सितम्बर 2010  
 नायब सूबेदार योगेन्द्र मिश्रा (जेसी-696211पी), 01 सितम्बर 2010  
 नायब सूबेदार बी जेसू राजन (जेसी-696222एफ), 01 सितम्बर 2010  
 नायब सूबेदार शरफुद्दीन अहमद (जेसी-696223के), 01 अक्टूबर 2010  
 नायब सूबेदार वेणुगोपाला कुरूप एन (जेसी-696224एम), 01 दिसम्बर 2010  
 नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र (जेसी-696229एल), 01 दिसम्बर 2010  
 नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-696251डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010  
 नायब सूबेदार अशोकन एमटी (जेसी-696344एल), 01 दिसम्बर 2010  
 नायब सूबेदार कुमार बी आर (जेसी-696345एन), 01 दिसम्बर 2010  
 नायब सूबेदार कुलबीर सिंह (जेसी-696346डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010  
 नायब सूबेदार असीम कुमार मण्डल (जेसी-696347वाई), 01 दिसम्बर 2010  
 नायब सूबेदार शिव मोहन प्रसाद (जेसी-696348एफ), 01 जनवरी 2011  
 नायब सूबेदार चन्दर भान (जेसी-696358एल), 01 जनवरी 2011  
 नायब सूबेदार ऋषि पाल (जेसी-696361एल), 01 जनवरी 2011  
 नायब सूबेदार जोली कुमार के (जेसी-696381वाई), 01 जनवरी 2011  
 नायब सूबेदार पुसुपथी ए (जेसी-696382एफ), 01 फरवरी 2011  
 नायब सूबेदार गैबी साहू (जेसी-696340पी), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार शिव सिंह (जेसी-696089के), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार सुकुमार अधिकारी (जेसी-696383के), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार विद्या सागर उपाध्याय (जेसी-696339ए), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार बाला चन्द्र कैमल आर (जेसी-696359एन), 01 मई 2011

नायब सूबेदार सुनील कुमार (जेसी-696360एच), 01 मई 2011

नायब सूबेदार अनिल कुमार बीटी (जेसी-696385पी), 01 मई 2011

कुलवन्त सिंह राणा  
अवर सचिव

#### वायु सेना

सं. 529, दिनांक 20 अक्टूबर 2011---माननीय राष्ट्रपति महोदय,  
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:-

#### भारतीय वायु सेना

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक पर

#### ए ई (एम) शाखा

बी वेंकटेशन (24467), बदरी प्रसाद (24466), 25 अप्रैल 2010 से प्रभावी

#### ए ई (एल) शाखा

एच हुसैन (24471), एस श्याम सुन्दर (24470), 25 अप्रैल 2010 से प्रभावी

फ्ला अफ से फ्ला लेफ्ट के मूल रैंक पर

#### प्रशासन शाखा

जी वी एस कुमार (29969), आशिष शर्मा (29978), के वी सिंह (29977), गोपालन अजीत (29976), अभिषेक कटोच (29975), राघव बुधिराजा (29974), किरण कुमार के (29973), एस के सिंह (29972), श्वेतांक सिन्हा (29970), पी के काम्बले (29983), जैज्ज अलि खान (29982), एम के एस पाटिल (29981), प्रभांशु शुक्ला (29980), नरेश कुमार (29979), डी के सिंह (29971) 21 जून 10 से प्रभावी

#### संभारिकी शाखा

लोकेन्द्र सिंह कुम्पावत (29990), एम एस बिनीश (29985), मोहसिन रज़ा (29986), हेमंत बिष्ट (29987), मनीष कुमार (29988), एस एस वर्मा (29989) 21 जून 10 से प्रभावी

#### लेखा शाखा

विष्णु विलसन (29991), मोहित अग्रवाल (29993), रवि तोमर (29994), निमिष कुलश्रेष्ठ (29992) 21 जून 10 से प्रभावी

#### शिक्षा शाखा

धरमवीर तिवारी (29997), सिद्धार्थ खरबन्दा (29996), संजीव शर्मा (29998), संजीव कुमार चौधरी (29995), 21 जून 10 से प्रभावी

#### मेट शाखा

हरि प्रसाद साद (29999), 21 जून 10 से प्रभावी

#### ए ई (एम) शाखा

जे सिंह (29828), वाई के यादव (29829), जी के दीक्षित (29830), गोबिन्द सिंह (29823), हरिन्दर सिंह (29824), नरेन्द्र सिंह (29821), विनीत महाजन (29827), विवेक द्विवेदी (29820), पी कुमार (29822), विश्वनाथ जामी (29826), राजन त्यागी (29825), 02 जनवरी 09 से प्रभावी

#### ए ई (एल) शाखा

निखिल कवात्रा (29845), यू पुरकायस्थ (29844), पी एम जयकृष्णन (29843), नागराज आर (29841), रविन्दर कुमार (29832), एम एस एन राव (29831), नीरज गुप्ता (29839), एन सेम्युअल प्रवीण (29838), के पी बिजौय (29837), अभिनव शर्मा (29836), आसुरी सतीश कुमार (29835), एन वेंकटरामन (29834), जी वी रामकृष्ण (29833), वी एस भदोरिया (29840), ए के शर्मा (29872), जी कांडपाल (29846), के बी शेट (29847), कुलबीर सिंह (29848), एस एस गोयत (29849), वाई कपलेश (29850), अंकुर दीक्षित (29851), राहुल पुततुण्डा (29852), एस सैनी (29853), एन रामकृष्ण (29854), वी आर सेंगर (29855), एस के तनुज (29871), सुमित शर्मा (29856), 02 जनवरी 09 से प्रभावी

शरद सोनावने (29673), 02 जनवरी 09 से प्रभावी

#### प्रशासन शाखा

डी एस सरवारा (30000), 21 जून 2010 से प्रभावी

#### एफ (पी) शाखा

आर सी जेकब (29892), राहुल नैनवाल (29927), अश्विनी कुमार (29926), आर के कुलकर्णी (29925), अभिजीत सिंह (29924), एम जयकृष्णन (29921), केशव कुमार (29920), तिग्मांशु डोगरा (29919), रोहित कुमार चौहान (29918), प्रभाश मिश्रा (29917), सागर शर्मा (29916), रवीश कुमार (29923), अंकुश तोमर (29910), वी एन सुद्रमणियम (29909), अर्जुन के पटेल (29908), अनुभव महेन्द्र (29907), अर्पित शुक्ला (29906), अनुभव व्यास (29905), अश्विन प्रसाद (29904), अतुल सुरी (29903), एस विजेश्वर (29902), संदीप भास्कर (29901), आर सी उनियाल (29900), दीपक धनकर (29899), पी के वासीरेड्डी (29898), गोपी कृष्ण (29897), ए एस कुमार (29896), ए पिचिपू राजा (29895), आशिष रावत (29961), मेहताब सौंद (29959), रक्षित मदान (29958), दीपांकर दास (29957), यू के मिश्रा (29955), विकास कुमार (29894), अखिल भारद्वाज (29893), मोहित ओला (29947), ए खंदूरी (29945), ए एच नकवी (29944), आश्रय नेगी (29947), पी जेड पोथेन (29942), निशित मिश्रा (29941),

कपिल देव (29940), एल बी सिंह (29939), योगेश कुमार (29938), विवेक मोहन (29937), संजय वर्मा (29936), सौरभ दहिया (29935), पी के शर्मा (29934), समीर मधवाल (29879), पी सिंह चाहल (29878), पी एस कुमार (29877), मनीष कुमार (29876), समीर अबरोल (29875), मयंक पंवार (29874), अंकित सूद (29873), एस शेखर (29933), विराट भोला (29932), आर के गोदरा (29928), एस टी बडगुजर (29953), वी रावत (29952), अमित गौड़ (29951), डी वी पाण्डे (29950), पी एन जोशी (29949), के एस विशाल (29948), सम्बित पटनायक (29915), मोहित गुप्ता (29914), सी के राव (29913), अनुज गुप्ता (29912), रिजुल शर्मा (29911), आर के शर्मा (29891), जिग्मेत नोरबू (29890), कुणाल कालरा (29889), यू बी सिंह (29888), निर्मल कुमार (29887), जॉन ईपेन (29886), साहिल कपूर (29885), गौरव पठनिया (29884), अनिकेत कुमार (29883), मनीष जोशी (29882), एल नायक (29881), आर ए अत्रे (29880), हिमाद्री विस्तास (29930), एच एस भराज (29929)--21 जून 2010 से प्रभावी

#### एफ (एन) शाखा

पी वी जोशी (29968), पीयूष त्रिपाठी (29967), जी जी मेक्समिलन (29966), सुश्री निवेदिता चौधरी (30010), सुश्री भावना डी मखीजानी (30009), अंजल दास (29965), आर के आज़ाद (29922), डी भट्टाचर्जी (29963), प्रभुपद पाण्डा (29962), प्रमोद खेदार (29960), वाई ए नारायणपेठकर (29956), सुकेश सिंह (29946), दीपक नेगी (29964)--21 जून 2010 से प्रभावी।

#### प्रशासन शाखा

दीपक कुमार (30001), अनूप कुमार (30002)--21 जून 2010 से प्रभावी।

#### संभारिकी शाखा

विनीत कुमार त्रिवेदी (30004), लकी केसवानी (30003), ए आर चौधरी (30005) 21 जून 2010 से प्रभावी

#### एफ (पी) शाखा

सुश्री सोनाली सेठी (30008), सुश्री सुरभि आर्या (30006), सुश्री तेजश्री एम पाटिल (30007)--21 जून 2010 से प्रभावी।

तरुण खरे  
विंग कमांडर  
संयुक्त निदेशक  
कार्मिक अफसर-3(डी)

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 530, दिनांक 20 अक्टूबर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

श्रीमती हेमावती फ्रांसिस, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 10 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्रीमती पीडी गाइकवाड को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 11 मई 2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

वी पी सिंह  
उपनिदेशक (कार्मिक एए-2)

#### रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 531, दिनांक 21 अक्टूबर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष नीचे लिखे अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी हुई तिथि (पूर्वाह्न) से दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड में पदोन्नति करते हैं:--

नाम श्री/श्रीमती/कु, प्रयोगशाला/स्थापना, वर्तमान ग्रेड, पदोन्नति ग्रेड, पदोन्नत ग्रेड का पे बैंड और ग्रेड पे (रु), पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि

हरीश बिष्ट, मुख्यालय-डीएचआरडी, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100/-) + 5,400/- 01 सितम्बर 2011

रितु ए चोपड़ा, मुख्यालय-डीएरो, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800/-) + 4,800/- 01 सितम्बर 2011

बीबी शर्मा  
संयुक्त निदेशक  
(कार्मिक-टीसी)

#### सेना शाखा

(सेना डाक सेवा)

#### अस्थाई कमीशन

सं. 532, दिनांक 21 अक्टूबर 2011--राष्ट्रपति, द्वारा सेना डाक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख लिखित तिथि से अस्थाई कमीशन छोड़ने के बाद अपना पद जैसा की उनके नाम के सामने लिखा है प्रतिधारित की अनुमति प्रदान की जाती है:--

अफसर का विवरण, अस्थाई कमीशन छोड़ने की अनुमति तथा पद प्रतिधारित करना

ब्रिगे वाईएस मोहन, वी एस एम, (टीसी-31472एक्स), 26 दिसम्बर 2006 (अपराह्न), ब्रिगे

कर्नल (टीएस) टीजे सिबस्टीयन (टीसी-31323के), 31 जनवरी 2007 (अपराह्न), कर्नल

ब्रिगे गधाधर भूयान (टीसी-31393एच), 27 नवम्बर 2007 (पूर्वाह्न), ब्रिगे

लेफ्टि कर्नल शांती स्वरूप शर्मा (टीसी-31370एफ), 30 अप्रैल 2008 (अपराह्न), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल नानकु लाल (टीसी-31440पी), 30 जून 2008 (अपराह्न), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल कमल सिंह (टीसी-31481वाई), 30 जून 2008 (अपराह),  
लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल के प्रमाचन्द्रन (टीसी-31386एम), 31 अक्टूबर 2008  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

कर्नल जवाहर लाल श्रीवास्तवा (टीसी-31357एक्स), 31 दिसम्बर 2009  
(अपराह), कर्नल

लेफ्टि कर्नल अशोक कुमार द्विवेदी (टीसी-31476एन), 31 जुलाई  
2010 (अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल वीडी नेगी (टीसी-31453एम), 30 सितम्बर 2010  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

कर्नल उमेश कुमार वर्मा (टीसी-31553एक्स), 08 दिसम्बर 2006  
(अपराह), कर्नल

कैप्टन जमिता राम (टीसी-31549ए), 21 फरवरी 2007 (अपराह),  
कैप्टन

कर्नल (टीएस) ए एस पुव्वैया (टीसी-31344ए), 28 फरवरी 2007  
(अपराह), कर्नल

लेफ्टि कर्नल एन जी नायर (टीसी-31372एम), 28 फरवरी 2007  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल के नारायणन (टीसी-31355एम), 31 मार्च 2007  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल वी पी अब्राहम (टीसी-31383वाई), 31 मार्च 2007  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल टी सेल्वाराज (टीसी-31404एम), 31 मार्च 2007  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल पी राजा राव (टीसी-31442ए), 31 मार्च 2007 (अपराह),  
लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल जे एच धामगे (टीसी-31454पी), 31 मार्च 2007  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल आर वेंकटरमन (टीसी-31353एफ), 31 मई 2007  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

कर्नल वी रामुलु (टीसी-31535पी), 30 अगस्त 2007 (पूर्वाह), कर्नल

लेफ्टि कर्नल पी एम कुमारास्वामी (टीसी-31388एक्स), 31 अगस्त  
2007 (अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल पी बालासुब्रामनियन (टीसी-31421के), 31 अगस्त 2007  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल प्रेम नारायण श्रीवास्तव (टीसी-31403एफ), 30 सितम्बर  
2007 (अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल जसवन्त सिंह जरियाल (टीसी-31456ए), 31 अक्टूबर  
2007 (अपराह), लेफ्टि कर्नल

ब्रिगे संजीव थापर (टीसी-31413एल), 23 नवम्बर 2007 (अपराह),  
ब्रिगे

लेफ्टि कर्नल के श्रीनिवासन (टीसी-31469एक्स), 31 दिसम्बर 2007  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

कर्नल (टीएस) डीएस चौहान (टीसी-31297एन), 31 मार्च 2008  
(अपराह), कर्नल

लेफ्टि कर्नल तरसेम सिंह (टीसी-31462एन), 31 मार्च 2008 (अपराह),  
लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल ए श्रीधरन (टीसी-31464वाई), 31 मार्च 2008 (अपराह),  
लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल मंगतराम शर्मा (टीसी-31477डब्ल्यू), 30 अप्रैल 2008  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

कर्नल सुखदेव राज (टीसी-31501एफ), 10 मई 2008 (अपराह),  
कर्नल

कर्नल पी माणिकम (टीसी-31298डब्ल्यू), 31 मई 2008 (अपराह),  
कर्नल

लेफ्टि कर्नल डी जयराज (टीसी-31389ए), 31 मई 2008 (अपराह),  
लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल पी वी नारायण (टीसी-31487ए), 31 मई 2008 (अपराह),  
लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल ए एस अरुणाचलम (टीसी-31463डब्ल्यू), 30 जून 2008  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल सूर्य प्रताप सिंह (टीसी-31478वाई), 30 जून 2008  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल डी सोमासुन्दरम (टीसी-31374एक्स), 31 अगस्त 2008  
(पूर्वाह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल जोगिन्दर सिंह (टीसी-31460एच), 31 अगस्त 2008  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल एएसए नायर (टीसी-31441एक्स), 31 अक्टूबर 2008  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल आर आर जुचानी (टीसी-31382डब्ल्यू), 31 दिसम्बर  
2008 (अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल एस चेल्लादुरई (टीसी-31458एल), 31 मार्च 2009  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल संतोष कुमार शर्मा (टीसी-31461एल), 31 मार्च 2009  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल एम सुन्दरम (टीसी-31470एम), 31 मई 2009 (अपराह),  
लेफ्टि कर्नल

कर्नल एस एम माईकल (टीसी-31307एम), 30 जून 2009 (अपराह),  
कर्नल

लेफ्टि कर्नल अधि शंकर मिश्रा (टीसी-31479एफ), 31 जुलाई 2009  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

कर्नल श्यो चन्द्रा सिंह (टीसी-31330ए), 31 अगस्त 2009 (अपराह),  
कर्नल

कर्नल संतोख सिंह (टीसी-31345एच), 31 अगस्त 2009 (अपराह),  
कर्नल

लेफ्टि कर्नल जी पचयप्पन (टीसी-31375ए), 31 जनवरी 2010  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल रामफर राम राजभर (टीसी-31423पी), 31 जनवरी 2010  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल सोहन लाल कंडवाल (टीसी-31466के), 31 जनवरी  
2010 (अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल बी रामास्वामी (टीसी-31493एन), 31 जनवरी 2010  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

मेजर जनरल वी सदासिवम (टीसी-31538एच), 24 फरवरी 2010  
(अपराह), मेजर जनरल

लेफ्टि कर्नल ब्रजमोहन शर्मा (टीसी-31385के), 31 मई 2010  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल आर राजाराम (टीसी-31468पी), 31 मई 2010 (अपराह),  
लेफ्टि कर्नल

लेफ्टि कर्नल धर्मपाल बड़क (टीसी-31482एफ), 31 मई 2010  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

कर्नल आर एस परमसिवन (टीसी-31358ए), 31 अक्टूबर 2010  
(अपराह), कर्नल

लेफ्टि कर्नल के वाई डोरले (टीसी-31495वाई), 31 अक्टूबर 2010  
(अपराह), लेफ्टि कर्नल

प्रदीप कुमार  
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 533, दिनांक 21 अक्टूबर 2011--

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

श्री वी पी ध्यानी (जन्म तिथि 31 जनवरी 1951), सं. निदे (स्वस्थाने)  
के अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर राष्ट्रपति उन्हें 31 जनवरी 2011 को  
सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करके 01 फरवरी 2011 से पेंशन स्थापना में  
स्थानांतरित करते हैं।

निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों के अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने  
पर सक्षम प्राधिकारी उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तारीख से सरकारी  
सेवा से सेवानिवृत्त करके पेंशन स्थापना में स्थानांतरित करते हैं:--

नाम, जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति की तारीख तथा पेंशन स्थापना में स्थानांतरण  
की तारीख

श्री आर पी सिंह, 07 जनवरी 1951, 31 जनवरी 2011, 01 फरवरी  
2011

श्री रामनिवास, 14 मई 1951, 31 मई 2011, 01 जून 2011

ए के लारोइया  
उप मुप्रअ (प्रशा.)

थल सेना शाखा

सं. 534, दिनांक 21 अक्टूबर 2011--राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र  
खण्ड-1, भाग-4 में 10 मार्च 2011 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की  
अधिसूचना शीर्षक 'नियमित सेना/स्थायी कमीशन' व उप शीर्षक कर्नल ( व  
समकक्ष) से ब्रिगेडियर ( व समकक्ष) के पद में सहर्ष निम्नलिखित संशोधन  
करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

चिकित्सा सेना कोर

कर्नल ( व समकक्ष) से ब्रिग ( व समकक्ष)

ए भार्गव (एमआर-04426वाई), 06 दिसम्बर 2010 वेतन व पेंशन पर  
बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 29 अक्टूबर 2010 से दी जाती है।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारी की सामने  
देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

(कोरीजेन्टम)

भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 दिसम्बर 1997 में प्रकाशित  
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में स्क्वाड्रन लीडर अलका (एमआर-  
07959एम) (एफ-22481एस) की पदोन्नति

के स्थान पर 31 दिसम्बर 1997

यह पढ़ा जाए 30 दिसम्बर 1997

फ्लाईट लेफ्टि के पद पर

भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 जुलाई 2004 में प्रकाशित रक्षा  
मंत्रालय की अधिसूचना में फ्लाईट लेफ्टि अलका (एमआर- 07959एम)  
(एफ-22481एस), एएमसी की वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता

के स्थान पर 31 दिसम्बर 1992

यह पढ़ा जाए 30 दिसम्बर 1992

यश पाण्डे

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मास)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 19th November 2011

## ARMY BRANCH

No. 519, dated 17th October 2011—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers to the grade of Joint Directors on regular basis with effect from the date mentioned against their respective names :—

Name, Date of birth and Date of Regularisation

C Arasakumar, 17 Nov 1951/01 Oct 1987

Archana Rai, 28 Mar 1956/01 Oct 1988

Rohini Sankar, 29 Mar 1955/01 Oct 1988

TP Srivastava, 09 Nov 1955/01 Oct 1988

Bharat Singh, 26 Feb 1955/01 Oct 1989

JP Dwivedi, 25 Jul 1954/01 Apr 2004

## MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

The Competent Authority is pleased to extend the appointment of the following Deputy Directors with effect from and upto the dates mentioned against their names or till retirement or till regular incumbents become available whichever is earlier :—

Name, Date of birth and Period From/To

Abinash Kumar, 16 Nov 1965, 01 Jan 2011/30 Jun 2011

Arvind, 17 Jun 1969, 01 Jan 2011/30 Jun 2011

Arvind Bakshi, 21 Sep 1957, 01 Jan 2011/30 Jun 2011

Ashok Chakrapani, 14 Apr 1970, 01 Jan 2011/30 Jun 2011

KN Manjunatha, 22 May 1967, 01 Jan 2011/30 Jun 2011

Nidhi Ojha, 26 Sep 1972, 01 Jan 2011/30 Jun 2011

Rajesh Tiwari, 30 Jun 1961, 01 Jan 2011/30 Jun 2011

SK Mishra, 25 Jan 1962, 01 Jan 2011/30 Jun 2011

The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The ad hoc appointment will not bestow on these Officers a claim for appointment to the above post on regular basis. The seniority in this Grade will not count for seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next grade.

The President is pleased to appoint the undermentioned Officers to the grade of Deputy Directors on regular basis with effect from the date mentioned against their respective names :—

Name, Date of birth and Date of Regularisation

Abhaya Singh, 21 Nov 1963/01 Oct 1997

V Vijay Shankar, 19 Feb 1965/01 Oct 2000

Vanali Sharma, 13 Jul 1964/01 Oct 2000

VS Pal, 01 Mar 1968/01 Oct 2000

Devendra Kumar, 05 Dec 1967/01 Oct 2000

M Chandrashekhar, 17 Jul 1969/01 Oct 2000

Pragya Shantanu, 06 Jun 1969/01 Oct 2000

KN Mishra, 17 Jul 1954/26 May 2001

Shiv Ram Bairwa, 11 Sep 1965/26 May 2001

CP Gusia, 03 Jan 1964/01 Apr 2003

Anupam Mishra, 29 Jul 1967/01 Apr 2003

DV Singh, 10 May 1959/01 Apr 2003

Deepak Khosla, 13 Jun 1967/01 Apr 2003

Nishi Srivastava, 08 Nov 1966/01 Apr 2003

Nirmal Wadhwa, 23 Jun 1958/01 Apr 2003

SC Pujari, 26 Jan 1955/01 Apr 2004

The President is pleased to promote the following Section Officers (Group 'B' Gazetted) of AFHQ Civil Service as Deputy Director (Group 'A' Gazetted) in Pay Band-III, Rs. 15,600—34,800/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period of six months from the dates mentioned against their respective names or till regular incumbents become available whichever is earlier :—

Name, Date of birth and Date of Promotion

Kundan Kumar, 17 Oct 1963/19 Apr 2011

Anita Kumari, 01 Jan 1967/19 Apr 2011

Pankaj Singh Sisodiya, 03 Aug 1974/11 May 2011

The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The service rendered on ad hoc basis in the grade of Dy Director would count for the purpose of their seniority in that grade and of eligibility for promotion to the next higher grade.

The Competent Authority is pleased to appoint the undermentioned Officers to the grade of Section Officer on regular basis with effect from the date mentioned against their respective names :—

Name, Date of birth and Date of Regularisation

HL Pasi, 11 Feb 1946/26 May 2001

RL Takhi, 15 Jul 1950/26 May 2001

Kundan Kumar 17 Oct 1963/26 May 2001

UP Mohanan, 01 Feb 1965/26 May 2001

Joseph Gerard Fernandez, 15 May 1963/26 May 2001

Prakash Giri, 05 Jun 1945/26 May 2001

Ramesh Kumar Khurana, 17 Sep 1945/26 May 2001

Sukhendu Dan, 12 May 1967/01 Apr 2002

PJ Ross, 19 Jun 1967/01 Apr 2002

Anita Kumari, 01 Jan 1967/01 Apr 2002

PM Dash, 23 Apr 1963/01 Apr 2002

Prabhu Dayal, 10 Mar 1946/01 Apr 2002

Yogesh Dwivedi, 01 Jan 1964/01 Apr 2002

Gulshan Rai, 30 Oct 1968/01 Apr 2003

A K L Das, 26 Jan 1966/01 Apr 2003

M Shamraj, 25 Sep 1949/01 Apr 2003

Desh Raj, 05 Oct 1955/01 Apr 2005

Dipak Kumar Das, 01 Aug 1966/01 Apr 2005

SK Melkani, 20 May 1967/01 Apr 2005

Biswaranjan Mohanty, 01 Jul 1968/01 Apr 2005

Sila Sinha, 01 Apr 1968/01 Apr 2005

Annapurani Srinivasan, 30 Apr 1945/01 Apr 2005

Binod Nand Jha, 10 Oct 1968/01 Apr 2006

Devi Dayal, 14 May 1953/01 Apr 2006

KK Mishra, 02 Jan 1968/01 Apr 2006

Raminder Singh, 29 May 1969/01 Apr 2006

Ashis Ray, 07 Jul 1969/01 Apr 2007

Shiv Kumar, 23 Feb 1971/01 Apr 2007

RK Talwar, 25 Dec 1951/01 Apr 2007

Pankaj Bharati, 09 Jul 1971/01 Apr 2007

Ram Niwas, 14 May 1951/01 Apr 2007

BS Chauhan, 03 Jul 1967/01 Apr 2007

RM Gupta, 10 Jan 1949/01 Apr 2007

KN Chaturvedi, 07 May 1950/01 Apr 2007

Satish Kumar, 05 Jul 1950/01 Apr 2008

SK Verma, 10 Dec 1971/01 Apr 2009

RC Sahoo, 13 Jun 1973/01 Apr 2009

Ashok Kumar, 02 Jul 1969/01 Apr 2010

RP Meena, 09 Sep 1964/01 Apr 2010

Sajan Lal, 05 Oct 1973/01 Apr 2011

BD Prasad, 06 Dec 1951/01 Apr 2011

The Competent Authority is pleased to extend the appointment of the following Section Officers with effect from and upto the dates mentioned against their names of

till retirement or till regular incumbents become available whichever is earlier :—

Name, Date of birth and Period From/To

IC Sharma, 14 Jun 1955, 01 Apr 2011/31 Dec 2011

SC Garg, 03 Jul 1955, 01 Apr 2011/31 Dec 2011

The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The ad hoc appointment will not bestow on these Officers a claim for appointment to the above post on regular basis. The seniority in this Grade will not count for seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next grade.

The President is pleased to appoint Kum Jaya Sinha (DOB: 01 Mar 1978) as Section Officer (Group 'B' Gazetted) of AFHQ Civil Service on regular basis in Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 05 May 2011.

AK LAROIYA  
Dy CAO (A)

#### ARMY BRANCH

#### ADJUTANT GENERAL'S BRANCH

No. 520, dated 17th October 2011—The President is pleased to appoint the following Civilian Assistant Security Officers as Civilian Security Officers (Group 'A' Gazetted) in PB-3, Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates shown against their names, until further orders :—

Name and Date of Appointment

Randhir Singh Dabas, 18 Jul 2011

Rajvinder Singh, 12 Jul 2011

Dharmakar Dashrath, 01 Aug 2011

Shyam Sunder, 16 Aug 2011

Prem Babu, 25 Jul 2011

Ashok Kumar Gupta, 08 Aug 2011

SSS SARMA  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 521, daed 17th October 2011—The President is pleased to make the following appointments :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

The Undermentioned Gentleman Cadets of 109TG Course and 18 UES Course whose GC number is prefixed by 'T'

(denoting TGC) are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 12 Jun 2010 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended (TGC) and AI 2/93, as amended (UES). They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 12 Jun 2008 under SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course and AI 2/93, as amended for GCs of UES Course :—

T/6673 Abhayjit Mehlawat (IC-72689W) Sigs with the seniority below T/6651 Radul Dev A (IC-72688N) Arty, T/6656 Anubhav Pant (IC-72691N) Inf, with the seniority below T/6662 Debmalya Mookherjee (IC-72690L) Arty, T/6678 Ankur Srivastava (IC-72702P) Sigs with the seniority below T/6648 Anuj Singh Chauhan (IC 72701M) Engrs, T/6641 Dinesh Kumar Yadav (IC-72710N) EME with the seniority below U/996 Sanjeev Singh (IC-72709Y) EME, T/6670 Nikhil Sharma (IC-72719H) EME with the seniority below U/1019 Manjul Raj (IC-72718A) Engrs, T/6643 Shyam Bihari Tripathi (IC-72729M) Sigs with the seniority below U/984 Pruno Robert (IC-72728K) Engrs and T/6654 Gurpreet Singh Feng (IC-72755N) AAD with the seniority below T/6685 Ankush Sharma (IC-72754L) AC, T/6677 Rattan Bhandari (IC-72776K) Engrs with the seniority below T/6689 Yajuvendra Kumar Gautam (IC-72775F) Engrs and T/6672 Veerender Choudhary (IC-72779X) Engrs with the seniority below T/6644 Bhruhu Vyas Patro (IC-72778P) ASC whose names have been published in the Gazette of India dated 09 Apr 2011.

#### SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

The undermentioned GCs of 109 Technical Graduates Course and 18 University Entry Scheme Course is granted Short Service Commission (on Probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their names under the provisions of SAI 1/S/94, as amended for the GCs of TG Course and under the provisions of AI 2/93, as amended for the GCs of UES Course :—

IMA No., Name, SS No., Arm/Service and Date of SSC Probation

#### 109 Technical Graduates Course

(T-6641) Dinesh Kumar Yadav, (SS-43954Y) EME, 15 Jul 2009

(T-6643) Shyam Bihari Tripathi, (SS-43956K) Sigs, 15 Jul 2009

(T-6654) Gurpreet Singh Feng, (SS-43967W) Sigs, 15 Jul 2009

(T-6656) Anubhav Pant, (SS-43969F) Sigs, 15 Jul 2009

(T-6670) Nikhil Sharma, (SS-43983N) Sigs, 15 Jul 2009

(T-6672) Veerender Choudhary, (SS-43985Y) Sigs, 15 Jul 2009

(T-6673) Abhayjit Mehlawat, (SS-43986F) Sigs, 15 Jul 2009

(T-6677) Rattan Bhandari, (SS-43990K) Sigs, 15 Jul 2009

(T-6678) Ankur Srivastava, (SS-43991M) Sigs, 15 Jul 2009

The Arm/Service allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

NILESH CHOUDHARY  
Lt Col  
AMS 8B

#### ARMY BRANCH

No. 522, dated 18th October 2011—The President is pleased to make the following appointments :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

To be Lts wef 12 Jun 2010

Vikrant Dhiman (IC-72205L) Inf seniority next below Rohit Salaria (IC-72204H) Inf Comma Rajeev Bopche (IC-72262M) Sigs seniority next below Raj Singh (IC-72261K) Arty Comma Jigmet Singey (IC-72320L) Inf seniority next below Raghavendra Singh Rathore (IC-72319W) AAD Comma Devendra Singh (IC-72330P) Inf seniority next below Vasudeo Damodar Awari (IC-72329A) Arty Comma Vivian Lazarus (IC-72399Y) Sigs seniority next below S Balasubramanian (IC-72398W) Inf Comma Arivnd Kumar (IC-72436F) Engrs seniority next below Ravinder Singh Kuntal (IC-72435) Arty Comma Vivek Krishna Painuly (IC-72446L) Inf seniority next below Ajay Chambial (IC-72445H) Inf Comma Abhishek (IC-72511) Int seniority next below Shashi Nandan Kumar (IC-72510X) Mech Comma Digvijay Singh Chauhan (IC-72514N) EME seniority next below Jitender Rahtore (IC-72513L) AC Comma Guriqbalparampreet Singh (IC-72529W) Inf and Arpit Sharma (IC-72530L) Sigs seniority next below Vinod Kaushal (IC-72528N) Inf respectively and Mukesh Kumar (IC-72540P) Inf seniority next below Varun Shamra (IC-72539A) AC whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 12 Feb 2011.

RAHUL SANGWAN  
Lt Col  
AMS 8B

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 523, dated 18th October 2011—The President is pleased to make the following appointment :—

Dr V Venkatesan, to be temporary Scientist 'D' on probation for one year in HEMRL, Pune with effect from 02 Sep 2008 (F/N) in the (Pay Band-3) Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 7,600/-.

HARISH MOHAN  
Dy Dir (Pers)



## ARMY BRANCH

No. 524, dated 18th October 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
(ARMY MEDICAL CORPS)

Surg Cdr to be Surg Capt (& equivalent)

K Bose - 28 Sep 2010, with notional  
(MR-06010A) (75466) seniority without effect on pay  
and pension from 01 Sep 2010.

R Pant - 04 Mar 2011, with notional  
(MR-05932W) seniority without effect on pay  
and pension from 01 Jan 2011.

YASH PANDEY  
Brig  
Dy DGAFMS (HR)

No. 525, dated 19th October 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION (SL)

Maj to be Lt Col

SL No., Name & Arms

SL-04540 Nizaauddin K, Engrs

SL-04541 Nirbahadur KC, Arty

SL-04543 Ranjit Singh, Engrs

SL-04544 James MJ, Engrs

SL-04545 Ramdas GN, Sigs

SL-04546 Satya Narain Yadav, Engrs

SL-04548 Tej Pratap Singh, Sigs

SL-04549 Chanchal Kumar Singh, Arty

SL-04550 Sombir Singh Maan, APTC

SL-04551 Ved Prakash, RO

SL-04552 Karutchelvn, Sigs

SL-04553 Bajrang Singh, AD Arty

SL-04554 Veerendra Singh, RO

SL-04556 Sukumar Manevan V, RO

SL-04557 Harbinder Singh, Engrs

SL-04558 P Ramanmjula Chetty, Engrs

SL-04559 Mukesh Chand Tyagi, RO

SL-04560 Madan Mohan Mishra, EME

SL-04562 Prasanta Kumar Das, RO

SL-04563 Prabhu Dayal Kherwa, APTC

SL-04564 Baldav Singh, Sigs

SL-04565 Balwan Singh, Sigs

SL-04566 UK Mishra, Sigs

SL-04567 Sulakude Vilas Mallu, Arty

SL-04568 Pooran Singh, Sigs

SL-04569 Nasib Chand, RO

SL-04570 Virendra Prasad Bhatt, RO

SL-04571 Kanwal Nain Singh, RO

SL-04572 Bir Nayayan Singh, RO

SL-04573 Jorawar Singh, RO

SL-04574 Yasin, RO

SL-04575 Jagat Singh Tanwar, RO

SL-04576 KK Nair, RO

SL-04577 Bhagat Singh Negi, Engrs

SL-04578 Shri Ram Atal, RO

SL-04580 Daljinder Singh, Engrs

SL-04581 Amul Shri Kant Desai, EME

SL-04582 Jagdish Chandra Pant, EME

SL-04583 Bhosle Ashok Krishnaji, RO

SL-04584 Manikandan V, RO

SL-04585 K Sankar, RO

SL-04586 B Ramachandran, RO

SL-04587 Kamalakshan MK, Sigs

SL-04589 Niranjan Singh, EME

SL-04590 Arjun Singh Cheema, EME

SL-04591 Ranu Singh Raj Purohit, Arty

SL-04592 Madan Lal Sharma, RO

SL-04593 Raj Kumar Singh, RO

—30 Apr 2011

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

SL-05072 Vijai Pal Singh Tomar, QM

SL-05081 Rattan Singh, Cipher

SL-05083 Chander Singh, QM

SL-05087 Ramesh Kumar Rasaily, QM

SL-05094 S Murugesan, Cipher

SL-05097 Balwant Singh, Cipher

SL-05098 Pulak Kumar Hajra, Cipher

SL-05099 Resham Singh, Cipher

SL-05102 Ashim Kumar Ghosh, Cipher

SL-05106 Mohammad Salim, AO

SL-05107 K Sujan Singh, Cipher

SL-05116 Rajinder Pershad Guleria, QM

SL-05117 Rohtas Singh, TEO

SL-05104 Narayanan Nair K, Emae (AE)

SL-05114 Krishna Bahadur Khattri, SL QM

—13 Dec 2010

PRABHAT ROSS

Dy Dir  
MS-8C

## ARMY BRANCH

No. 526, dated 19th October 2011—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC Officers with effect from the date mentioned against him :—

## PERMANENT COMMISSION

To be Maj

Mukul Gupta (MR-09098A), AMC, 22 Jan 2011

To be Capt

Capt Deepu V Joy (MR-09031F), 10 Feb 2011

Capt Ankur Rawat (MR-09008N), 10 Feb 2011

Capt Deep Shikha (MR-08997P), 10 Feb 2011

Capt Nidhi Garg (MR-08995K), 10 Feb 2011

Capt K V Vinu Balraam (MR-08984X), 10 Feb 2011

YASH PANDE

Brig  
Dy DGAFMS (HR)

No. 527, dated 19th October 2011—The President is pleased to make the following promotion :—

## REGULAR ARMY

## CORPS OF ENGINEERS

## BENGAL ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Hav Ashish Kumar Singh Sengar (No. 1480750N now JC-339536L), 30 Apr 2011&

Hav Babu Lal (No. 1482370N now JC-339537N), 30 May 2011^

Hav Rajeshwar Prasad (No. 1482415H now JC-339538W), 01 Jun 2011#

Hav Kaptan Singh (No. 1482441K now JC-339539Y), 01 Jun 2011#

Hav Inder Pal Singh (No. 1482448N now JC-339540N), 07 Jun 2011#

Hav Suresha Nand (No. 1482478L now JC-339541W), 01 Jun 2011#

Hav Soban Singh (No. 1482479N now JC-339542Y), 01 Jun 2011#

Hav Bachcha Babu Singh (No. 1482513H now JC-339543F), 01 Jun 2011#

Hav Prabdyal Singh (No. 1482565Y now JC-339544K), 01 Jun 2011#

Hav Lahi Ram Basumatary (No. 1481778A now JC-339545M), 04 Jun 2011#

Hav Ramesh Singh (No. 1482600W now JC-339546P), 01 Jun 2011#

Hav Somvir (No. 1482610A now JC-339547X), 01 Jun 2011#

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav Narender Singh (No. 6389708W now JC-339548A), 24 May 2011\$

Hav Parma Nand (No. 1484969A now JC-339549H), 11 Jun 2011#

Hav Kuldeep (No. 1484970P now JC-339550X), 01 Jun 2011#

Hav Rajesh Kumar (No. 1484978F now JC-339551A), 01 Jun 2011#

Hav Rajesh Kumar (No. 1484984P now JC-339552H),  
01 Jun 2011#

Hav Sat Narayan (No. 1484988L now JC-339553L), 02 Jun  
2011#

Hav Shiva Bahadur Singh (No. 1484996K now JC-  
339554N), 01 Jun 2011#

Hav Shiva Darshan Pal (No. 1484262H now JC-339555W),  
01 Jun 2011#

Hav Lalit Kumar (No. 1484283Y now JC-339556Y), 01 Jun  
2011#

Hav Ram Niwas (No. 1484867K now JC-339557F), 01 Jun  
2011#

Hav Madan Mohan Mohapatra (No. 1484853K now JC-  
339558K), 02 Jun 2011#

Hav Dharamvir Singh (No. 6389731K now JC-339559M),  
01 Jun 2011#

Hav Mahesh Chaudhary (No. 1484845L now JC-339560F),  
01 Jun 2011#

Hav Hajare Gajendra Devidas (No. 6389959A now JC-  
339561K), 01 Jun 2011#

Hav Atar Vajir Allabax (No. 6390019F now JC-339562M),  
01 Jun 2011#

Hav Sukh Ram Singh (No. 1484893L now JC-339563P),  
01 Jun 2011#

To be Nb Sub/SVY

Hav Shri Ram (No. 1480464M now JC-339564X), 01 Jun  
2011#

Hav Santosh Singh (No. 1480565A now JC-339565A),  
01 Jun 2011#

Hav Lal Bahadur Singh (No. 1480520A now JC-339566H),  
01 Jun 2011#

&(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011  
without effect on pay and allces)

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Mar 2011  
without effect on pay and allces)

^(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 May 2011  
without effect on pay and allces)

#(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011  
without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (GD)

Hav Umesh Kumar Tiwari (No. 1481661F now JC-  
339514M), 05 Apr 2011&

Hav Anil Vyas (No. 15336196P now JC-339515P), 24 Apr  
2011@

Hav Om Singh (No. 1482110H now JC-339516X), 28 Apr  
2011%

Hav Naresh Kumar Dobriyal (No. 1482355Y now JC-  
339517A), 01 May 2011#

Hav Ramesh Chandra Panthri (No. 1482406F now JC-  
339518H), 01 May 2011#

Hav Serveshwar Prasad (No. 1482411M now JC-339519L),  
01 May 2011#

Hav Raj Bahadur Yadav (No. 1482432H now JC-339520A),  
01 Jun 2011\$

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav Sanjay Kumar Singh (No. 1484595P now JC-339521H),  
09 May 2011^

Hav Mohan Singh (No. 6389950L now JC-339522L),  
02 May 2011#

Hav Padwal Baban Sudam (No. 6389977H now JC-  
339523N), 02 May 2011#

Hav Babu Lal (No. 6389985F now JC-339524W), 02 May  
2011#

Hav Sunil Kumar Rai (No. 6389989X now JC-339525Y),  
02 May 2011#

Hav Kuldeep Singh (No. 6389997W now JC-339526F),  
02 May 2011#

Hav Verma Vasant Lal (No. 6390005F now JC-339527K),  
01 May 2011#

Hav Jadeja Inderjit Singh Bahadur Singh (No. 6390035Y  
now JC-339528M), 01 May 2011#

Hav Kakade Ramesh Jagar Nath (No. 6390039P now JC-  
339529P), 01 May 2011#

Hav Jadhav Khandu Maruti (No. 6390041M now JC-  
339530K), 01 May 2011#

Hav Chavan Nityanand Chandranath (No. 6390045H now  
JC-339531M), 02 May 2011#

To be Nb Sub/SVY

Hav Rama Shankar Prasad (No. 1480517A now JC-  
339532P), 02 May 2011#

Hav Hem Chandra Lohani (No. 1534402H now JC-  
339533X), 04 May 2011#

Hav Kutartha Sankar Sahu (No. 15344333X now JC-  
339534A), 01 May 2011#

Hav Devabrata Singha (No. 15344335H now JC-339535H),  
09 May 2011#

&(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010  
without effect on pay and allces)

^(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allces)

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Feb 2011 without effect on pay and allces)

%(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allces)

#(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allces)

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allces)

REGULAR ARMY  
CORPS OF ENGINEERS MES

MILITARISED CADRE

To be Nb Sub

Rank, Name, Army No. & JC No., Date of Promotion & Remarks

Hav Jitendra Yadav (No. 1491369A now JC-332227A), 29 Nov 2010G

Hav Brinjith Kumar VN (No. 1583336P now JC-332228H), 29 Nov 2010G

Hav Swaraj Singh Verma (No. 1586924N now JC-332229L), 29 Nov 2010G

Hav Lal Babu (No. 1491895Y now JC-332230A), 27 Jan 2011G

Hav Chavan Santosh Shivaji (No. 1586281F now JC-332231H), 27 Nov 2010G

Hav Pawan Kumar (No. 1489465W now JC-332232L), 18 Jan 2010G

Hav N Mini Reddy (No. 1489900A now JC-332233N), 07 Dec 2010G

Hav Swadesh Kumar (No. 1491719F now JC-332234W), 06 Dec 2010G

Hav Triveni Kumar Bajpai (No. 1491759H now JC-332235Y), 07 Dec 2010G

Hav Chandr Sekhar Palai (No. 1492315L now JC-332236F), 07 Dec 2010G

Hav Virender Singh (No. 1494236P now JC-332237K), 06 Dec 2010G

Hav Yogesh Kumar Rawat (No. 15313369P now JC-332238M), 07 Dec 2010G

Hav Bauri Bandhu Sahoo (No. 1586436L now JC-332239P), 06 Dec 2010G

Hav Salvi Sanjay Ramchandra (No. 1587391H now JC-332240K), 08 Dec 2010G

Hav Ravindra Singh (No. 1588751A now JC-332241M), 11 Jan 2011G

Hav Bhagirath Ghosh (No. 1587893L now JC-332242P), 28 Dec 2010G

Hav Pramod Kumar (No. 1491954A now JC-332243X), 05 Jan 2011G

Hav Suraj Mahato (No. 15314298L now JC-332244A), 06 Jan 2011G

Hav Samir Mondol (No. 1587604L now JC-332245H), 07 Dec 2010G

Hav Somraj Gurjar (No. 1581219L now JC-332246L), 08 May 2010C

Hav Patil Sanjay Dnyandev (No. 1585614W now JC-332247N), 30 Nov 2010G

Hav Tilak Chand Dhayani (No. 1484056Y now JC-332248W), 29 Jan 2011G

Hav Ravendra Singh (No. 1488531F now JC-332249Y), 12 Jan 2011G

Hav Kuldeep Singh (No. 1488422P now JC-332250N), 29 Nov 2010G

Hav Niranjana Singh (No. 1482739N now JC-332251W), 05 Jan 2011G

Hav Deepak Singh Rawat (No. 1489681K now JC-332252Y), 22 Nov 2010G

Hav Bishnu Kumar Darnal (No. 1492627F now JC-332253F), 06 Dec 2010G

Hav Sunil Kumar Gupta (No. 1494302M now JC-332254K), 19 Nov 2010G

Hav Wat Laxman Sahadeo (No. 1585370N now JC-332255M), 09 Dec 2010G

Hav K. Seenivasan (No. 15312138M now JC-332256P), 02 Dec 2010G

Hav R Venkatesan (No. 15316197W now JC-332257X), 24 Nov 2010D

Hav Abdul Jaleel (No. 15312110M now JC-332258A), 29 Nov 2010B

Hav Pawandeep Singh (No. 1588413H now JC-332259H), 26 Nov 2010B

Hav Rajendra Singh (No. 1587654W now JC-332260X), 29 Nov 2010C

Hav A Mukund Bhagwat (No. 15314269W now JC-332261A), 29 Nov 2010G

Hav Shamsher Ansari (No. 1588799N now JC-332262H), 29 Nov 2010G

- Hav Ajith Kumar KK (No. 15312914F now JC-332263L), 10 Jan 2011G
- Hav Chand Ram Bhanwala (No. 1491810X now JC-332264N), 06 Dec 2010G
- Hav Rajesh Kumar (No. 1587077P now JC-332265W), 20 Dec 2010G
- Hav Rakesh Kumar Sharma (No. 15317965Y now JC-332266Y), 01 Dec 2010G
- Hav Sadafule Y Tukaram (No. 1585080W now JC-332267F), 30 Nov 2010G
- Hav Pradeep Chand (No. 1487858N now JC-332268K), 22 Nov 2010G
- Hav Jaganath Sadhu Khan (No. 1493977A now JC-332269M), 22 Nov 2010G
- Hav Shibu TL (No. 15312737M now JC-332270F), 06 Dec 2010G
- Hav Rajesh Kumar (No. 1587399P now JC-332271K), 27 Nov 2010C
- Hav Sanjay Singh Solanki (No. 1587488N now JC-332272M), 08 Dec 2010C
- Hav Narender Singh Rawat (No. 15317988A now JC-332273P), 29 Nov 2010G
- Hav Bhajan Singh (No. 1490140P now JC-332274X), 09 Dec 2010G
- Hav Suresh Mallampati (No. 15315913K now JC-332275A), 09 Dec 2010G
- Hav Pankaj Kumar (No. 15344358K now JC-332276H), 08 Jan 2011G
- Hav R Sreedhar (No. 15309686Y now JC-332277L), 05 Oct 2010E
- Hav Harish Chandra Sahu (No. 15562903P now JC-332278N), 05 Apr 2011A
- Hav Darekar Pravin Saheb Rao (No. 1587977Y now JC-332279W), 16 Feb 2011G
- Hav Narpat Singh (No. 1488341P now JC-332280L), 14 Feb 2011G
- Hav Bidhan Mahato (No. 1494442Y now JC-332281N), 04 Jan 2011G
- Hav Uday Kumar V S (No. 15309526Y now JC-332282W), 10 Sep 2010F
- Hav Bhuneshwar Dubey (No. 1488110Y now JC-332283Y), 15 Feb 2011C
- Hav Rajoo Singh Yadav (No. 1493122X now JC-332284F), 29 Nov 2010G
- Hav Subhash Chander (No. 1485548K now JC-332285K), 02 May 2011H
- Hav Sheo Prasad (No. 1485890K now JC-332286M), 02 May 2011H
- Hav Vishwa Nath Singh Yadav (No. 1486931P now JC-332287P), 03 May 2011H
- Hav Manuri V K Sudhakar (No. 15309673F now JC-332288X), 02 May 2011H
- Hav Bhudake Balkrishna Yashwant (No. 15309794H now JC-332289A), 02 May 2011H
- Hav Zond Bhanudas Nathu (No. 15309827H now JC-332290P), 03 May 2011H
- Hav Naik Ravindra Sham Rao (No. 15309875H now JC-332291X), 02 May 2011H
- Hav Sahajan K A (No. 15310058W now JC-332292A), 30 Apr 2011H
- Hav Perumal G (No. 15310398Y now JC-332293H), 04 May 2011H
- Hav Chavhan Subhash Kashinath (No. 1579479X now JC-332294L), 05 May 2011H
- Hav Mukheteswar Tiwari (No. 1485978N now JC-332295N), 02 May 2011J
- Hav Antar Pal (No. 15310257K now JC-332296W), 02 May 2011H
- Hav Anand Singh Bisht (No. 1488764H now JC-33227Y), 03 Mar 2011G
- Hav Rakesh Kumar (No. 1489778P now JC-332298F), 30 Nov 2010G
- Hav Balaji R (No. 15313387X now JC-332299K), 19 May 2011H
- Hav A Thamil Selvam (No. 15309765N now JC-332300N), 06 Oct 2010E
- Hav Bankim Biswas (No. 1486199X now JC-332301W), 03 May 2011J
- Hav Krishna Vir Singh (No. 1483963M now JC-332302Y), 10 May 2011H
- Hav Rama Tiwari (No. 1486926K now JC-332303F), 02 May 2011H
- Hav K Kottaian (No. 15309750L now JC-332304K), 07 May 2011H
- Hav Sree Kumar B (No. 15310075 now JC-332305M), 14 May 2011H

Hav A Muthumani (No. 15310246X now JC-332306P),  
30 Apr 2011H

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 May 2009,  
24 Dec 2009, 29 Apr 2010, 17 Jul 2010, 24 Jul 2010, 24 Aug  
2010, 01 Oct 2010, 19 Mar 2011 and 01 Apr 2011 without  
effect on Pay and Allces)

Note :

A Seniority wef 08.05.2009

B Seniority wef 24.12.2009

C Seniority wef 29.04.2010

D Seniority wef 17.07.2010

E Seniority wef 24.07.2010

F Seniority wef 24.08.2010

G Seniority wef 01.10.2010

H Seniority wef 19.03.2011

J Seniority wef 01.04.2011

Hav Sahul Hameed B (No. 15312810A now JC-331629L), 30  
Jan 2009\$

Hav Praveen Kumar (No. 6933282L now JC-331200W), 03  
Sep 2007#

Hav Mukund Chaudhary (No. 1585646Y now JC-331393F),  
23 Jun 2008@

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Jan 2009,  
17 Mar 2007 and 27 May 2008 without effect on Pay and  
Allces)

Note :

\$ Seniority wef 09.01.2009

# Seniority wef 17.03.2007

@ Seniority wef 27.05.2008

#### MADRAS ENGINEER GROUP

To be Nb Sub Clks (SD)

Rank/Trade, Name, Personnel No., JC No. Allotted &  
Promotion to Nb Sub

Hav/Clk (SD) Laxman Singh Bist (No. 15306629M now JC-  
309979X), 12 Jan 2011\*

Hav/Clk (SD) NRI Singh (No. 15308313Y now JC-309980M),  
26 Mar 2011\*

Hav/Clk (SD) Chandrakant Hugar (No. 15308336A now JC-  
309981P), 01 Jan 2011

Hav/Clk (SD) A Gurumoorthi (No. 15308572F now JC-  
309982X), 01 Jan 2011

Hav/Clk (SD) Dasrath Kumar (No. 7240510P now JC-  
309983A), 01 Jan 2011

Hav/Clk (SD) Amarjeet Singh (No. 2684942H now JC-  
309984H), 01 Jan 2011

Hav/Clk (SD) JH Babu (No. 15308680L now JC-309985L),  
01 Jan 2011

Hav/Clk (SD) M Balakrishnan (No. 15308685K now JC-  
309986N), 30 Jan 2011\*

Hav/Clk (SD) Antoni Cruse A (No. 15308801F now JC-  
310010W), 15 Feb 2011@

Hav/Clk (SD) Ramamohanan K (No. 15308840A now JC-  
310011Y), 01 Feb 2011

Hav/Clk (SD) Chandran T (No. 15308841H now JC-  
310012F), 01 Feb 2011

Hav/Clk (SD) S Santhoskumar (No. 15308896M now JC-  
310013K), 02 Feb 2011@

Hav/Clk (SD) Subhendu Kumar DE (No. 2684997M now  
JC-310014M), 02 Feb 2011@

Hav/Clk (SD) Shailesh Kumar Nayak (No. 7240519K now  
JC-310015P), 01 Feb 2011

Hav/Clk (SD) V Deva Doss (No. 2685026N now JC-  
310076M), 06 May 2011\$

Hav/Clk (SD) R Muthu Kumar (No. 15309082A now JC-  
310077P), 01 May 2011

Hav/Clk (SD) S Ravichandran (No. 15309085N now JC-  
310078X), 01 May 2011

Hav/Clk (SD) K Nalla Thambi (No. 15309088F now JC-  
310079A), 13 May 2011@

To be Nb Sub (SKsT)

Hav/SKT Zore Bhalchandra Ramachandra (No. 15308794W  
now JC-310054N), 09 Apr 2011#

Hav/SKT Venkata Raman G (No. 15309096A now JC-  
310055W), 01 Apr 2011

Hav/SKT P Suresh (No. 15309100X now JC-310056Y), 25  
May 2011#

Hav/SKT Suresh Kumar M (No. 15309296W now JC-  
310057F), 09 Apr 2011#

Hav/SKT Alex Thomas (No. 15309429F now JC-310080P),  
01 May 2011

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011  
without effect on pay and allces)

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011  
without effect on pay and allces)

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allces)

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (GD)

Rank/Trade, name, Army No., JC No., Date of Promotion & Dt of seniority without effect on pay and allces

Hav (GD) S Dominic Savio (No. 15301478P now JC-309769X), 12 Feb 2011/01 May 2010

Hav (GD) C Sankar (No. 15305318M now JC-309869H), 14 Mar 2011/01 Sep 2010

Hav (GD) KC Dhananjaya Naidu (No. 1384952X now JC-310058K), 01 Apr 2011/18 Dec 2010

Hav (GD) Boopani CH Balaguruvaiah (No. 15302811P now JC-309987W), 01 Jan 2011/01 Jan 2010

Hav (GD) K Dakshinamoorthy (No. 15302858A now JC-309988Y), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) Babu D (No. 15302931N now JC-309989F), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) S Baskaran (No. 15303085X now JC-309990W), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) H Meenakshi Sundaram (No. 15303090H now JC-309991Y), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) Nagappa B Hansi (No. 15303092N now JC-309992F), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) V Ramalingaiah (No. 15303017K now JC-309993K), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) M Selvaraj (No. 15303095F now JC-309994M), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) P Nirmal Raj (No. 15303097M now JC-309995P), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) Ramasamy (No. 15303060L now JC-309996X), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) P Santosh Kumar (No. 15303109W now JC-309997A), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) Bommake Subba Reddy (No. 15303129K now JC-309998H), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) Anil B (No. 15303196P now JC-309999L), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) L Silvester (No. 15303216X now JC-310000M), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) AS Venkatesulu (No. 15303175Y now JC-310001P), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) Padmanaban N (No. 15303237N now JC-310002X), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) Subhas (No. 15303296A now JC-310003A), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) Sunil Kumar K (No. 15303379L now JC-310004H), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) N Bala Madduleti (No. 15303500N now JC-310005L), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) Santhosh Kumar R (No. 15303551F now JC-310006N), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) K Samuel Doss (No. 15303569X now JC-310007W), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) Omanakuttan Pillai A (No. 15303630W now JC-310008Y), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) Shaik Khadar Vali (No. 15303653X now JC-310016X), 02 Feb 2011/01 Jan 2011

Hav (GD) K Thengesar (No. 15303673L now JC-310017A), 10 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Manu K (No. 15317836Y now JC-310018H), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Shyju CM (No. 15318428A now JC-310019L), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) A Jesu Rajan (No. 15303726Y now JC-310020A), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Somasundaram PK (No. 15303751X now JC-310021H), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Madhu Kumar B (No. 15303769N now JC-310022L), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Pankajakshan KT (No. 15303882H now JC-310024W), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Gopakumar K (No. 15303894X now JC-310025Y), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) B Shyama Sundara Rao (No. 15303910K now JC-310026F), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Bhimappa Soudi (No. 15304083Y now JC-310027K), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) M Soundara Rajan (No. 15304141X now JC-310028M), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Sivasamy K (No. 15304145N now JC-310029P), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Balappa Hireholi (No. 15304202K now JC-310030K), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) K Arjunan (No. 15304340L now JC-310031M), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) TJL Seetharamayya (No. 15302483M now JC-310032P), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Mojjada Sankara Rao (No. 15302781H now JC-310033X), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) S Dhanamajya Naidu (No. 15302919M now JC-310034A), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Anbalagan G (No. 15304385L now JC-310074F), 01 May 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Jayaprakash K (No. 15304418L now JC-310035H), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Wagh Mare Kumar (No. 15304474K now JC-310036L), 02 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Bandaru Suri Babu (No. 15304665Y now JC-310037N), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Muthuogi Yadagiri (No. 15304758N now JC-310038W), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Ponnada Trinadha Rao (No. 15304787H now JC-310039Y), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Hav (GD) Thiruvengadam V (No. 15304854H now JC-310040N), 14 Mar 2011/01 Mar 2011

Hav (GD) Gurusamy P (No. 15304883X now JC-310041W), 01 Mar 2011/01 Mar 2011

Hav (GD) A Sekaran (No. 15304931M now JC-310042Y), 01 Mar 2011/01 Mar 2011

Hav (GD) G Perumal Samy (No. 15304939Y now JC-310043F), 01 Mar 2011/01 Mar 2011

Hav (GD) Pappithi Saradaiah (No. 15305015X now JC-310044K), 01 Mar 2011/01 Mar 2011

Hav (GD) Saravanan K (No. 15305196N now JC-310045M), 01 Mar 2011/01 Mar 2011

Hav (GD) Pipalla Ramakrishna (No. 15305222K now JC-310046P), 01 Mar 2011/01 Mar 2011

Hav (GD) Gouse Jilani MD (No. 15305264W now JC-310047X), 01 Mar 2011/01 Mar 2011

Hav (GD) S Venkateswaran (No. 15305314W now JC-310048A), 01 Mar 2011/01 Mar 2011

Hav (GD) PB Sunil (No. 15305376W now JC-310049H), 01 Mar 2011/01 Mar 2011

Hav (GD) R Sreenivasa Rao (No. 15305415K now JC-310050X), 01 Mar 2011/01 Mar 2011

Hav (GD) Jaswant Singh (No. 15305441L now JC-310051A), 01 Mar 2011/01 Mar 2011

Hav (GD) M Gopal (No. 15305457W now JC-310052H), 01 Mar 2011/01 Mar 2011

Hav (GD) Nallana Dasaradharao (No. 15305592K now JC-310053L), 14 Mar 2011/01 Mar 2011

Hav (GD) G Sivakumar (No. 15305686F now JC-310059M4), 01 Mar 2011/01 Mar 2011

Hav (GD) Nagamuthu S (No. 15305786M now JC-310060F), 01 Apr 2011/01 Apr 2011

Hav (GD) V Selvaraj (No. 15305794L now JC-310061K), 01 Apr 2011/01 Apr 2011

Hav (GD) S Dharmalingam (No. 15305798F now JC-310062M), 01 Apr 2011/01 Apr 2011

Hav (GD) Sivakumar P (No. 15305901F now JC-310063P), 01 Apr 2011/01 Apr 2011

Hav (GD) Manoj Kumar N (No. 15305909N now JC-310064X), 01 Apr 2011/01 Apr 2011

Hav (GD) P Arunachalam (No. 15305930W now JC-310065A), 01 Apr 2011/01 Apr 2011

Hav (GD) Mohammad Rafi (No. 15305959Y now JC-310066H), 01 Apr 2011/01 Apr 2011

Hav (GD) Muthireddigari (No. 15305976Y now JC-310067L), 01 Apr 2011/01 Apr 2011

Hav (GD) J Maria Arockiam (No. 15306008N now JC-310068N), 01 Apr 2011/01 Apr 2011

Hav (GD) Chinnasamy S (No. 15306041L now JC-310069W), 01 Apr 2011/01 Apr 2011

Hav (GD) Venkatesan T (No. 15306050M now JC-310070L), 01 Apr 2011/01 Apr 2011

Hav (GD) N Haribabu Reddy (No. 15306095M now JC-310071N), 01 Apr 2011/01 Apr 2011

Hav (GD) Mohammad Johan Shaida (No. 15306146P now JC-310072W), 01 Apr 2011/01 Apr 2011

Hav (GD) Sundar M (No. 15306149H now JC-310073Y), 01 Apr 2011/01 Apr 2011

Hav (GD) Pradeep Kumar PP (No. 15306192K now JC-310075K), 01 Apr 2011/01 Apr 2011

#### BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Kesh Pal (No. 1577711Y now JC-351848N), 04 Jul 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Major Singh (No. 1577446N now JC-351850L), 09 Jul 2011



Hav (GD) Resham Singh (No. 1577576W now JC-351851N), 01 Jun 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 with/without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Hari Singh (No. 1577965W now JC-351862A), 01 Jul 2011

Hav (GD) Shri Ram Sharma (No. 1577967F now JC-351863H), 02 Jul 2011

Hav (GD) Amrik Singh (No. 1577987P now JC-351864L), 01 Jul 2011

Hav (GD) Baljinder Singh (No. 1578022K now JC-351865N), 01 Jul 2011

Hav (GD) Jaswant Singh (No. 1578023M now JC-351866W), 01 Jul 2011

Hav (GD) Ram Subhash Singh (No. 1578049F now JC-351867Y), 04 Jul 2011

Hav (GD) Kashmir Singh (No. 1578091A now JC-351868F), 01 Jul 2011

Hav (GD) Harpal Singh (No. 1578096Y now JC-351869K), 01 Jul 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2011 with/without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Kulwant Singh (No. 1576804F now JC-351816L), 29 May 2011

Hav (GD) Latif Ahmed (No. 1583656K now JC-351817N), 26 May 2011

Hav (GD) Yogendra Rai (No. 1584166H now JC-351818W), 02 May 2011

Hav (GD) N G Amuthoi Singh (No. 15566375N now JC-351819Y), 02 May 2011

Hav (GD) Patil Jitendra Dhanraj (No. 1577429N now JC-351820N), 15 May 2011

(Gtd promotion to the rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Labh Singh (No. 1577419K now JC-351831A), 01 Jun 2011

Hav (GD) Irshad Husain (No. 1577466F now JC-351832H), 01 Jun 2011

Hav (GD) Mohammad Shahid (No. 1576792X now JC-351833L), 01 Jun 2011

Hav (GD) Mahavir Singh (No. 1577560L now JC-351834N), 01 Jun 2011

Hav (GD) Nayim Haider (No. 1577607L now JC-351835W), 01 Jun 2011

Hav (GD) Harcharan Singh (No. 1577676F now JC-351836Y), 01 Jun 2011

Hav (GD) Shamsher Singh (No. 1577679P now JC-351837F), 01 Jun 2011

Hav (GD) Angrej Singh (No. 1577724W now JC-351838K), 01 Jun 2011

(Gtd promotion to the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 with pay and allowances)

Hav (GD) Dadan Sharma (No. 1577710W now JC-351839M), 01 Jun 2011

Hav (GD) Tarsem Singh (No. 1577746P now JC-351840F), 01 Jun 2011

Hav (GD) Jaspal Singh (No. 1577752H now JC-351841K), 01 Jun 2011

Hav (GD) Prakash Narain Shukla (No. 1577779A now JC-351842M), 01 Jun 2011

Hav (GD) Birendra Singh Yadav (No. 1577782A now JC-351843P), 01 Jun 2011

Hav (GD) Mukhtiar Singh (No. 1577784L now JC-351844X), 01 Jun 2011

Hav (GD) Jay Ram Singh Yadav (No. 1577799N now JC-351845A), 01 Jun 2011

Hav (GD) Daulat Ram (No. 1577877A now JC-351846H), 01 Jun 2011

Hav (GD) Jagtar Singh (No. 1577957X now JC-351847L), 01 Jun 2011

(Gtd promotion to the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 with pay and allowances)

Hav (GD) Sukhen Dey (No. 15581123Y now JC-351785W), 01 Mar 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Satyabir Singh Yadav (No. 1579522N now JC-351786Y), 22 Mar 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Naik Bajarang Ananda (No. 1576146A now JC-351793P), 03 Apr 2011

Hav (GD) Pradeep Kumar Singh (No. 1577138N now JC-351794X), 02 May 2011

Hav (GD) Ram Binod Tiwari (No. 14614031Y now JC-351795A), 28 Apr 2011

Hav (GD) Bharat Madhukar Ramdas (No. 1580926H now JC-351796H), 13 Apr 2011

Hav (GD) Ranbir Singh (No. 1580506H now JC-351797L),  
20 Apr 2011

Hav (GD) Jagbir (No. 1577163M now JC-351798N),  
14 Apr 2011

Hav (GD) Sheikh Khundus Turab (No. 1578709N now  
JC-351799W), 09 Apr 2011

Hav (GD) Surinder Pal (No. 1579137K now JC-351800A),  
21 Apr 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Mane Jagannath Ganpat (No. 1579860L now  
JC-351802L), 02 May 2011

Hav (GD) Subhash Bhikaji Chavan (No. 1577239F now  
JC-351803N), 02 May 2011

Hav (GD) Abdul Khalik (No. 1577227M now JC-  
351804W), 06 May 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Narayan Singh (No. 1577257K now JC-  
351805Y), 01 May 2011

Hav (GD) Satpute Bajarang Bhimaji (No. 1577289M now  
JC-351806P), 01 May 2011

Hav (GD) Bakhshish Singh (No. 1580443L now JC-  
351807K), 01 May 2011

Hav (GD) Harbhajan Singh (No. 1581091L now JC-  
351808M), 01 May 2011

Hav (GD) Ashok Kumar (No. 1582361F now JC-351809P),  
01 May 2011

Hav (GD) Jaspal Singh (No. 1582418L now JC-351810K),  
10 May 2011

Hav (GD) Veer Santosh Sampat (No. 1583120N now JC-  
351811M), 01 May 2011

Hav (GD) Parminder Singh (No. 1583262L now JC-  
351812P), 01 May 2011

Hav (GD) Gurmeet Singh (No. 1583899P now JC-  
351813X), 01 May 2011

Hav (GD) Jagdish Singh (No. 1575790A now JC-  
351814A), 07 May 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2011  
with/without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk SD)

Hav (Clk SD) Bijendra Singh (No. 6932068W now JC-  
351849W), 02 Jul 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Nirmal Mistry (No. 6932384P now JC-  
351852W), 02 Jul 2011

Hav (Clk SD) Soumen Maiti (No. 6932410L now JC-  
351853Y), 01 Jul 2011

Hav (Clk SD) Ram Sadhan Bhattacharya (No. 6932431F  
now JC-351854F), 01 Jul 2011

Hav (Clk SD) Ram Bilash (No. 1582421L now JC-  
351855K), 01 Jul 2011

Hav (Clk SD) Gurmeet Singh (No. 1582476P now JC-  
351856M), 02 Jul 2011

Hav (Clk SD) Jeet Singh (No. 1582489M now JC-351857P),  
02 Jul 2011

Hav (Clk SD) Rakesh Bahadur Singh (No. 6389854W  
now JC-351858X), 04 Jul 2011

Hav (Clk SD) Kunwar Pal Singh (No. 6389867N now JC-  
351859A), 02 Jul 2011

Hav (Clk SD) Anand Prakash Gaud (No. 6389871W now  
JC-351860P), 01 Jul 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2011 with/  
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Sanjay Kumar (No. 6933238F now JC-  
351815H), 16 Mar 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011  
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Juggi Lal (No. 6931517N now JC-351821W),  
01 Jun 2011

Hav (Clk SD) Pardeep Kumar (No. 6931555K now JC-  
351822Y), 01 Jun 2011

Hav (Clk SD) Pradeep Kumar (No. 6931843W now JC-  
351823F), 01 Jun 2011

Hav (Clk SD) Palkar Mahadev Trimbak (No. 1582060X  
now JC-351824K), 01 Jun 2011

Hav (Clk SD) Tulsi Ram Gurjar (No. 1582308W now JC-  
351825M), 01 Jun 2011

Hav (Clk SD) Gadadhar Midya (No. 6932385X now JC-  
351826P), 01 Jun 2011

Hav (Clk SD) Bhiv Singh (No. 1582310N now JC-351827X),  
01 Jun 2011

Hav (Clk SD) Avtar Singh (No. 1582377M now JC-  
351828A), 01 Jun 2011

Hav (Clk SD) Anil Kumar Mishra (No. 1582391Y now JC-  
351829H), 01 Jun 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 with  
pay and allowances)

Hav (Clk SD) Dheerendra Singh Yadav (No. 6933268Y now JC-351787F), 18 Apr 2011

Hav (Clk SD) Ajeet Prasad (No. 6933285Y now JC-351788K), 11 Apr 2011

Hav (Clk SD) Mahtab Ahmed Khan (No. 1581615F now JC-351789M), 08 Apr 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Acharya Xivair Sheshacharya (No. 6389541X now JC-351801H), 02 May 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Nicham Vitthal Narayan (No. 1587426N now JC-351790F), 20 Apr 2011

Hav (SKT) Sunil Kumar (No. 1587486H now JC-351791K), 28 Apr 2011

Hav (SKT) Chhatish Kumar Nayak (No. 1587596X now JC-351792M), 21 Apr 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT) Sandip Kundu (No. 1587602A now JC-351830X), 01 Jun 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 with pay and allowances)

Hav (SKT) Muktipada Gain (No. 1587605N now JC-351861X), 12 Jul 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (RT)

Rect (RT) Shri Ramdatta Pandey (No. 351680M now JC-351680M), 07 May 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 May 2011 with pay and allowances)

ALKA JOSHI  
Under Secy.

#### ARMY BRANCH

No. 528, dated 20 October 2011—The President is pleased to make the following promotions.

#### REGULAR ARMY

#### ARMY MEDICAL CORPS

To be Subs Sub (Lab Asstt/Lab Technician)

Nb Sub Ajay Kumar Upadhyay (JC-697082M), 01 Jun 2009

Nb Sub Jagmal Singh (JC-696091F), 01 Sep 2009

Nb Sub Pramod Kumar (JC-696215L), 01 Sep 2009

Nb Sub Sajeevan NK (JC-696715H), 01 Sep 2009

Nb Sub Presnna Kumar VJ (JC-696393N), 01 Sep 2009

Nb Sub Plas Bandyopadhyay (JC-696857A), 01 Sep 2009

Nb Sub Narendra Nath Pandey (JC-696915Y), 01 Sep 2009

Nb Sub R Muthu Krishnan (JC-696696H), 01 Sep 2009

Nb Sub Jay Shanker Pandey (JC-696823M), 01 Sep 2009

Nb Sub Vibhaker Kumar Himanshu (JC-696730X), 01 Sep 2009

Nb Sub Anil Kumar Sharma (JC-696731A), 01 Sep 2009

Nb Sub Anil Kumar Kanojiya (JC-696732H), 01 Sep 2009

Nb Sub Triloki Prasad Gupta (JC-696734N), 01 Sep 2009

Nb Sub Karkhela Subhash Rambhau (JC-696835F), 01 Sep 2009

Nb Sub Pratap Singh (JC-696836K), 01 Sep 2009

Nb Sub Rajju Singh (JC-696838P), 01 Sep 2009

Nb Sub Rajbir Singh (JC-696837M), 01 Sep 2009

Nb Sub Hardeen Ram Kanswa (JC-696839X), 01 Sep 2010

Nb Sub Shatrughan Rajbhar (JC-696840M), 01 Sep 2009

Nb Sub Sandhya Kumar Tiwari (JC-696841P), 01 Sep 2009

Nb Sub Mathew TV (JC-696098L), 01 Dec 2009

Nb Sub Pyarelal Jakhamola (JC-696842X), 01 Oct 2010

Nb Sub Kali Prasad Mishra (JC-696843A), 01 Mar 2011

Nb Sub Ashok Singh Bhadouria (JC-696851Y), 01 Mar 2011

Nb Sub Ram Sajiwan Pandey (JC-696852F), 01 Mar 2011

Nb Sub Tetaru Mahto (JC-696855P), 01 Mar 2011

Nb Sub Pundalik Patil Dattatray (JC-696856X), 01 Mar 2011

Nb Sub Vishnu Jadhav (JC-696858H), 01 Mar 2011

Nb Sub Laxman Prasad Mirdha (JC-696859L), 01 Mar 2011

Nb Sub Ashok Kumar Sharma (JC-696860A), 01 Mar 2011

Nb Sub Mani Kandan Pillai J (JC-696861H), 01 Mar 2011

Nb Sub Parichhit Singh (JC-697010H), 01 Mar 2011

Nb Sub Diwakar pathak (JC-697031Y), 01 Mar 2011

Nb Sub Mahendra Pal (JC-697353Y), 01 Mar 2011

Nb Sub Shinde Bharat Jaywant (JC-697084X), 01 Apr 2011

Nb Sub Gauri Shanker Ray (JC-697088N), 01 Apr 2011

Nb Sub B Damodara Rao (JC-697386K), 01 Apr 2011

Nb Sub Chandran N (JC-697089W), 01 Apr 2011

Nb Sub Awadesh Kumar Tiwari (JC-697186N), 01 Apr 2011

Nb Sub Ashok Kumar (JC-697090L), 01 Apr 2011

Nb Sub Nagarajan P (JC-697091N), 01 Apr 2011

Nb Sub Naresh Kumar Tewetia (JC-697092W), 01 Apr 2011

Nb Sub Nand Kumar (JC-697447W), 01 Apr 2011

Nb Sub S John Kennedy (JC-697093Y), 01 Apr 2011

Nb Sub Raguvir Singh (JC-697094F), 01 Apr 2011

Nb Sub Bijendra Singh (JC-697388P), 01 Apr 2011

Nb Sub Subhash Singh Panwar (JC-697095K), 01 Apr 2011

Nb Sub Polla Siva Raja (JC-697188Y), 01 Apr 2011

Nb Sub Ballava Tripathy (JC-697354F), 01 Apr 2011

Nb Sub Debendra Nath Pradhan (JC-697450W), 01 Apr 2011

Nb Sub Sahadeb Nayak (JC-697355K), 01 Apr 2011

Nb Sub Dindayal Singh (JC-697356M), 01 Apr 2011

Nb Sub S Babu (JC-697399F), 01 Apr 2011

Nb Sub Mohmad Tariq Siddiqui (JC-697357P), 01 Apr 2011

Nb Sub Ashok Kumar (JC-697358X), 01 Apr 2011

To be Subs. Sub (Operation Room Assistant)

Nb Sub Redhey Shyam (JC-695838H), 01 Mar 2010

Nb Sub Banshi Lal (JC-695817M), 01 Mar 2010

Nb Sub Suresh Pal (JC-695839L), 01 Apr 2010

Nb Sub Birendra Singh (JC-695840A), 01 Apr 2010

Nb Sub Rajendra Prasad (JC-695841H), 01 Apr 2010

Nb Sub Shiv Nandan Singh (JC-695818P), 01 Apr 2010

Nb Sub Surendra Prasad Singh (JC-695842L), 01 Apr 2010

Nb Sub Anirudhan K (JC-695886H), 01 May 2010

Nb Sub Chanda Ch Tirupati Reddy (JC-695953H), 01 Jun 2010

Nb Sub Narendra Singh (JC-695965X), 01 Jun 2010

Nb Sub Subas Chandra Bos (JC-695966A), 01 Jun 2010

Nb Sub Sahukari Papa Rao (JC-695967H), 01 Jun 2010

Nb Sub Mahadeo Mhatukade (JC-696020A), 01 Jun 2010

Nb Sub Binod Kumar Rai (JC-695885A), 01 Jun 2010

Nb Sub Raghbir Singh (JC-696021H), 01 Jul 2010

Nb Sub S Mohan Ranga (JC-696022L), 01 Jul 2010

Nb Sub Rajendra Prasad Chaurasiya (JC-695991Y), 01 Jul 2010

Nb Sub N Ravichandran (JC-696013K), 01 Jul 2010

Nb Sub Satbir Singh (JC-696015P), 01 Aug 2010

Nb Sub Jivendra Kumar Sharma (JC-696026F), 01 Aug 2010

Nb Sub Kanwar Pal (JC-696087Y), 01 Aug 2010

Nb Sub Biswa Karma Singh (JC-696202N), 01 Aug 2010

Nb Sub Rajender Kumar (JC-696088F), 01 Sep 2010

Nb Sub Shiv Charan Singh (JC-696101A), 01 Sep 2010

Nb Sub Pawan Kumar (JC-696102H), 01 Sep 2010

Nb Sub Krishna Nandy (JC-696103L), 01 Sep 2010

Nb Sub Deshmukh Mangal Singh Daulat Rao (JC-696075K), 01 Sep 2010

Nb Sub Gaikwad Bhaskar Nathu (JC-696205F), 01 Sep 2010

Nb Sub Rishi Ram (JC-696206K), 01 Sep 2010

Nb Sub Yogendra Mishra (JC-696211P), 01 Sep 2010

Nb Sub B Jesu Rajan (JC-696222F), 01 Sep 2010

Nb Sub Sharfuddin Ahmed (JC-696223K), 01 Oct 2010

Nb Sub Venugopala Kurup N (JC-696224N), 01 Dec 2010

Nb Sub Kailash Chand (JC-696229L), 01 Dec 2010

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-696251W), 01 Dec 2010

Nb Sub Ashokan MT (JC-696344L), 01 Dec 2010

Nb Sub Kumar BR (JC-696345N), 01 Dec 2010

Nb Sub Kulbir Singh (JC-696346W), 01 Dec 2010

Nb Sub Asim Kumar Mondal (JC-696347Y), 01 Dec 2010

Nb Sub Shiv Mohan Prasad (JC-696348F), 01 Jan 2011

Nb Sub Chander Bhan (JC-696358L), 01 Jan 2011

Nb Sub Rishi Pal (JC-696361L), 01 Jan 2011

Nb Sub Jolly Kumar K (JC-696381Y), 01 Jan 2011

Nb Sub Pusupathy A (JC-696382F), 01 Feb 2011

Nb Sub Gaibi Shahu (JC-696340P), 01 Feb 2011

Nb Sub Shiv Singh (JC-696089K), 01 Mar 2011

Nb Sub Sukumar Adhikari (JC-696383K), 01 Apr 2011

Nb Sub Vidya Sagar Upadhyay (JC-696339A), 01 Apr 2011

Nb Sub Bala Chandra Kaimal R (JC-696359N), 01 May 2011

Nb Sub Sunil Kumar (JC-696360H), 01 May 2011

Nb Sub Anil Kumar VT (JC-696385P), 01 May 2011

K.S. RANA  
Under Secy

#### AIR FORCE

No. 529, dated 20th October 2011—The President is pleased to make the following Substantive Promotion:—

#### INDIAN AIR FORCE

SQN LDR to be Subs WG CDR

#### AE (M) BRANCH

B Venkatesan (24467), Badri Prasad (24466)—w.e.f. 25 Apr 2010

#### AE(L) BRANCH

H Hussain (24471), Shyam Sunder S (24470)—w.e.f. 25 Apr 2010

FG Offr to be Subs Flt Lt

#### ADM BRANCH

GVS Kumar (29969), Ashish Sharma (29978), KV Singh (29977), Gopalan Ajith (29976), Abhishek Katoch (29975), Raghav Budhiraja (29974), Kiran Kumar K (29973), SK Singh (29972), Shvetank Sinha (29970), PK Kamble (29983), Aizaz Ali Khan (29982), MKS Patil (29981), Prabhanshu Shukla (29980), Naresh Kumar (29979), DK Singh (29971)—w.e.f. 21 Jun 2010

#### LGS BRANCH

Lokendra Singh Kumpawat (29990), M S Bineesh (29985), Mohsin Raza (29986), Hemant Bisht (29987), Manish Kumar (29988), SS Verma (29989)—w.e.f. 21 Jun 2010

#### ACCTS BRANCH

Vishnu Wilson (29991), Mohit Agrawal (29993), Ravi Tomar (29994), Nimish Kulsreshtha (29992)—w.e.f. 21 Jun 2010

#### EDN BRANCH

Dharam Veer Tiwari (29997), Siddharth Kharbanda (29996), Sanjeev Sharma (29998), Sanjeev Kumar Chaudhary (29995)—w.e.f. 21 Jun 2010

#### MET BRANCH

Hari Prasad Sad (29999), w.e.f. 21 Jun 2010

#### AE (M) BRANCH

J Singh (29828), V K Yadav (29829), G K Dixit (29830), Gobind Singh (29823), Harinder Singh (29824), Narendra Singh (29821), Vineet Mahajan (29827), Vivek Diwedi (29820), P Kumar (29822), Viswanath Jami (29826), Ranjan Tyagi (29825)—w.e.f. 02 Jan 2009

#### AE (L) BRANCH

Nikhil Kawatra (29845), U Purkayastha (29844), P M Jayakrishnan (29843), Nagaraj R (29841), Ravinder Kumar (29832), MSN Rao (29831), Neeraj Gupta (29839), N Samuel Praveen (29838), K P Bijoy (29837), Abhinav Sharma (29836), Aasuri Satish Kumar (29835), N Venkataraman (29834), GV Ramakrishna (29833), V S Bhadoria (29840), AK Sharma (29872), C Kandpal (29846), K B Shet (29847), Kulbir Singh (29848), S S Goyat (29849), V Kaplish (29850), Ankur Dixit (29851), Rahul Putatunda (29852), S Saini (29853), N Ramakrishna (29854), V R Sengar (29855), SK Tanuj (29871), Sumit Sharma (29856)—w.e.f. 02 Jan 2009

#### AE (L) BRANCH

Sarad Sonawane (29673)—w.e.f. 02 Jan 2009

#### ADM BRANCH

D S Sharwara (30000)—w.e.f. 21 Jun 2010

#### F (P) BRANCH

R C Jacob (29892), Rahul Nainwal (29927), Ashwini Kumar (29926), R K Kulkarni (29925), Abhijeet Singh (29924), M Jeyakrishnan (29921), Keshov Kumar (29920), Tigmanshu Dogra (29919), Rohit Kumar Chauhan (29918), Prabhash Mishra (29917), Sagar Sharma (29916), Raveesh Kumar (29923), Ankush Tomar (29910), V N Subramaniam (29909), Arjun K Patel (29908), Anubhav Mahendra (29907), Arpit Shukla (29906), Anubhav Vyas (29905), Ashwin Prasad (29904), Atul Suri (29903), S Vigneshwar (29902), Sandeep Bhaskar (29901), R C Uniyal (29900), Deepak Dhankar (29899), P K Vasireddy (29898), Gopi Krishna (29897), A S Kumar (29896), A Pichipoo Raja (29895), Ashish Rawat (29961), Mehtab Sond (29959), Rakshit Madan (29958), Dipankar Das (29957), U K Mishra (29955), Vikas Kumar (29894), Akhil Bhardwaj (29893), Mohit Ola (29947), A Khanduri (29945), A H Naqvi (29944), Ashray Negi (29943), P Z Pothan (29942), Nishit Mishra (29941), Kapil Dev (29940), L B Singh (29939), Yogesh Kumar (29938), Vivek Mohan (29937), Sanjay Verma (29936), Saurabh Dahiya (29935), P K Sharma (29934), Samir Madhwal (29879), P Singh Chahal (29878), PS Kumar (29877), Manish Kumar (29876), Samir Abrol (29875), Mayank Panwar (29874), Ankit Sood (29873), S Shekhar (29933), Virat Bhola (29932), R K Godara (29928), S T Badgujar (29953), V Rawat (29952), Amit Gaur (29951), D B Pandey (29950), P N Joshi (29949), K S Vishal (29948), Sambit Patnaik (29915), Mohit Gupta (29914), C K Rao (29913), Anju Gupta (29912), Rijul

Sharma (29911), R K Sharma (29891), Jigmet Norbu (29890), Kunal Kalra (29889), U B Singh (298988), Nirmal Kumar (29887), John Eapen (29886), Sahil Kapoor (29885), Gourav Pathania (29884), Aniket Kumar (29883), Manish Joshi (29882), L Nayak (29881), R A Atre (29880), Himadri Biswas (29930), H S Bharaj (29929)—w.e.f. 21 Jun 2010

#### F (N) BRANCH

P V Joshi (29968), Piyush Tripathi (29967), GG Maxmillan (29966), (Ms) Nivedita Choudhary (30010), (Ms) Bhawana D Makhijani (30009), Anjal Das (29965), R K Azas (29922), D Bhattacharjee (29963), Pravupada Panda (29962), Pramod Khedar (29960), Y A Narayanpethkar (29956), Sukesh Singh (29946), Deepak Negi (29964)—w.e.f. 21 Jun 2010

#### ADM BRANCH

Deepak Kumar (30001), Anup Kumar (30002)—w.e.f. 21 Jun 2010

#### LGS BRANCH

Vinit Kumar Trivedi (30004), Lucky Keswani (30003), A R Choudhary (30005)—w.e.f. 21 Jun 2010

#### F (P) BRANCH

(Ms) Sonali Sethi (30008), (Ms) Surbhi Arya (30006), (Ms) Tejashree M Patil (30007)—w.e.f. 21 Jun 2010

#### TARUN KHARE

Wg Comm

Jt Dir

Pers Offrs—3 (D)

#### DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 530, dated 20th October 2011—The President is pleased to make the following promotion :—

Smt Hemavathy Francis, Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 10 Feb 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay Rs. 4,600/-

Smt P D Gaikwad to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 11 May 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

VP SINGH

Dy Dir (Pers)

No. 531, dated 21st October 2011—The President is pleased to promote the undermentioned officer from existing grade w.e.f. the date (F/N) as mentioned against :—

Harish Bisht, HQ-DHRD, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2011

Ritu A Chopra, HQ-DAero, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/- 01 Sep 2011

BB SHARMA

Jt Dir (Pers-TC)

#### INTEGRATED HQ OF MOD (ARMY)

#### ARMY POSTAL SERVICE

#### TEMPORARY COMMISSION

No. 532, dated 21st October 2011—The President is pleased to permit the undermentioned Officers of the Army Postal Service Corps to relinquish temporary commission with effect from the dates noted against each and retain the rank after relinquishment of commission as shown against the name of the Officers :—

Particulars of the Officer, Permitted relinquishment of Temporary Commission & Retain the rank of

Brig YS Mohan, VSM (TC-31472X), 26 Dec 2006 (A/N), Brig

Col (TS) TJ Sebastian (TC-31323K), 31 Jan 2007 (A/N), Col

Brig Gadadhar Bhuyan (TC-31393H), 27 Nov 2007 (F/N), Brig

Lt Col Shanti Swarup Sharma (TC-31370F), 30 Apr 2008 (A/N), Lt Col

Lt Col Nanak Lal (TC-31440P), 30 Jun 2008 (A/N), Lt Col

Lt Col Kamal Singh (TC-31481Y), 30 Jun 2008 (A/N), Lt Col

Lt Col K Premchandran (TC-31386M), 31 Oct 2008 (A/N), Lt Col

Col Jawahar Lal Shrivastava (TC-31357X), 31 Dec 2009 (A/N), Col

Lt Col Ashok Kumar Dwivedi (TC-31476N), 31 Jul 2010 (A/N), Lt Col

Lt Col BD Negi (TC-31453M), 30 Sep 2010 (A/N), Lt Col

Col Umesh Kumar Verma (TC-31553X), 08 Dec 2006 (A/N), Col

Capt Jamita Ram (TC-31549A), 21 Feb 2007 (A/N), Capt

Col (TS) AS Poovaiah (TC-31344A), 28 Feb 2007 (A/N), Col

Lt Col NG Nair (TC-31372M), 28 Feb 2007 (A/N), Lt Col

Lt Col K Narayanan (TC-31355M), 31 Mar 2007 (AN), Lt Col

Lt Col VP Abraham (TC-31383Y), 31 Mar 2007 (A/N), Lt Col

Lt Col T Selvaraj (TC-31404M), 31 Mar 2007 (A/N), Lt Col

Lt Col P Raja Rao (TC-31442A), 31 Mar 2007 (A/N), Lt Col

Lt Col JH Dhamgaye (TC-31454P), 31 Mar 2007 (A/N), Lt Col

Lt Col R Venkataraman (TC-31353F), 31 Mar 2007 (A/N),  
Lt Col

Col V Ramulu (TC-31535P), 30 Aug 2007 (A/N), Col

Lt Col PM Kumaraswamy (TC-31388X), 31 Aug 2007  
(A/N), Lt Col

Lt Col P Balasubramanian (TC-31421K), 31 Aug 2007  
(A/N), Lt Col

Lt Col Prem Narain Srivastava (TC-31403F), 30 Sep 2007  
(A/N), Lt Col

Lt Col Jaswant Singh Jarial (TC-31456A), 31 Oct 2007  
(A/N), Lt Col

Brig Sanjeev Thapar (TC-31413L), 23 Nov 2007 (A/N),  
Brig

Lt Col K Srinivasan (TC-31469X), 31 Dec 2007 (A/N),  
Lt Col

Col (TS) DS Chauhan (TC-31297N), 31 Mar 2008 (A/N),  
Col

Lt Col Tarsem Singh (TC-31462N), 31 Mar 2008 (A/N),  
Lt Col

Lt Col A Sridharan (TC-31464Y), 31 Mar 2008 (A/N),  
Lt Col

Lt Col Mangat Ram Sharma (TC-31477W), 30 Apr 2008  
(A/N), Lt Col

Col Sukhdev Raj (TC-31501F), 10 May 2008 (A/N), Col

Col P Manickam (TC-31298W), 31 May 2008 (A/N), Col

Lt Col D Jeyaraj (TC-31389A), 31 May 2008 (A/N), Lt Col

Lt Col PV Nayayana (TC-31487A), 31 May 2008 (A/N),  
Lt Col

Lt Col AS Arunachalam (TC-31463W), 30 Jun 2008 (A/N),  
Lt Col

Lt Col Surya Pratap Singh (TC-31478Y), 30 Jun 2008  
(A/N), Lt Col

Lt Col D Somasundaram (TC-31374X), 31 Aug 2008  
(A/N), Lt Col

Lt Col Joginder Singh (TC-31460H), 31 Aug 2008 (A/N),  
Lt Col

Lt Col ASA Nair (TC-31441X), 31 Oct 2008 (A/N),  
Lt Colonel

Lt Col RR Juchani (TC-31382W), 31 Oct 2008 (A/N),  
Lt Colonel

Lt Col S Chelladurai (TC-31458L), 31 Mar 2009 (A/N),

Lt Col

Lt Col Santosh Kumar Sharma (TC-31461L), 31 Mar 2009  
(A/N), Lt Col

Lt Col M Sundaram (TC-31470M), 31 May 2009 (A/N),  
Lt Col

Col SM Michael (TC-31307M), 30 Jun 2009 (A/N), Col

Lt Col Adi Shanker Mishra (TC-31479F), 31 Jul 2009  
(A/N), Lt Col

Col Sheo Chandra Singh (TC-31330A), 31 Aug 2009  
(A/N), Col

Col Santokh Singh (TC-31345H), 31 Aug 2009 (A/N), Col

Lt Col G Patchayappan (TC-31375A), 31 Jan 2010 (A/N),  
Lt Col

Lt Col Rampher Ram Rajbhar (TC-31423P), 31 Jan 2010  
(A/N), Lt Col

Lt Col Sohan Lal Kandwal (TC-31466K), 31 Jan 2010  
(A/N), Lt Col

Lt Col B Ramaswamy (TC-31493N), 31 Jan 2010 (A/N),  
Lt Col

Maj Gen V Sadasivam (TC-31538H), 24 Feb 2010 (A/N),  
Maj General

Lt Col Brijmohan Sharma (TC-31385K), 31 May 2010  
(A/N), Lt Col

Lt Col R Rajaram (TC-31468P), 31 May 2010 (A/N), Lt Col

Lt Col Dharam Pal Barak (TC-31482F), 31 May 2010  
(A/N), Lt Col

Col RS Paramasivan (IC-31358A), 31 Oct 2010 (A/N), Col

Lt Col KY Dorle (IC-31495Y), 31 Oct 2010 (A/N), Lt Col

PRADEEP KUMAR  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

#### MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 533, dated 21st October 2011—On attaining the age of superannuation, the President is pleased to retire Shri BP Dhyani (DOB : 31 Jan 1951), Joint Director (In-situ) from Government Service with effect from 31 Jan 2011 and transferred to pension establishment with effect from 01 Feb 2011.

On attaining the age of superannuation, the Competent Authority is pleased to retire following Section Officers

from Government Service and transferred to pension establishment from the dates mentioned against their respective names.

Name, Date of Birth, Date of Retirement & Date of transfer to pension Establishment

RP Singh, 07 Jan 1951, 31 Jan 2011, 01 Feb 2011

Ram Niwas, 14 May 1951, 31 May 2011, 01 Jun 2011

AK LAROIYA  
Dy CAO(A)

#### ARMY BRANCH

No. 534, dated 21st October 2011—The President is pleased to make the following amendment to Ministry of Defence Gazette Notification published on 10 Mar 2011 in Part-I Section-4 of the Gazette of India under the heading Regular Army/Permanent Commission and Sub Heading Col to be Brig (& equivalent) :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### ARMY MEDICAL CORPS

Col to be Brig (& equivalent)

A Bhargava (MR-04426Y), 06 Dec 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 29 Oct 2010

The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC Officer with effect from the date mentioned against him/her :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Flt Lt to be Sqn Ldr

#### (CORRIGENDUM)

The date of promotion is respect of Sqn Ldr Alka (MR-07959M) (AF-22481S) at the Gazette Notification published on 03 Jul 2004 is amended as follows :—

For : with effect from 31 Dec 1997

Read : with effect from 30 Dec 1997

To be Flt Lt

The date of seniority for Pay and Promotion in respect of Flt Lt Alka (MR-07959M) (AF-22481S), AMC at the Gazette Notification published on 03 Jul 2004 is amended as follows :—

For : with seniority for pay and promotion from 31 Dec 1992

Read : with seniority for pay and promotion from 30 Dec 1992

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS(HR)